



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2008 (अग्रहायण 29, 1930)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20—DECEMBER 26, 2008 (AGRAHAYANA 29, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2008

सं. 608, दिनांक 28 नवम्बर 2008—इस मंत्रालय की दिनांक 24 मार्च, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) और 19(1) के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग (सचिवालय) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित विषय विशेष की बाबत एतद्द्वारा अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किया जाता है:—

पिछले अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम सहित नाम	टेलीफोन	अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम सहित नाम/टेलीफोन नंबर	विषय-वस्तु
1	2	3	4
श्री पी. के. रस्तोगी, विशेष सचिव (आर)	23017678	श्री आर. के. माथुर अपर सचिव (एम) 23017678	श्री जॉर्ज फर्नांडिस, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा अपने 07.02.2008 के पत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगना

के. मुरली
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 609, दिनांक 28 नवम्बर 2008—राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 09 जून 2007 से)

रणदीप पठानिया (आई सी-69114डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता इमाद शरीफ (आई सी-69113एन) आर्टी, कनाडे अभ्य दिलीप (आई सी-69117के) आर्टी ज्येष्ठता कुलकर्णी निखिल काशीनाथ (आई सी-69116एफ) इन्फैन्ट्री एवं सुदर्शन मिश्रा (आई सी-69187एच) एसी ज्येष्ठता चेतन शर्मा (आई सी-69186ए) एओसी के नीचे जिनका नाम भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में दिनांक 24 मई 2008 को प्रकाशित किया गया है।

(ले. के पद पर दिनांक 08 दिसम्बर 2001 से)

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र जो कि दिनांक 26 अक्टूबर 2002 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है:—

रवि नवीन (आई सी-61539ए) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता दीपक जोशी (आई सी-61538एक्स) सिग्नल के नीचे प्रदर्शित किया जाए।

(ले. के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2007 से)

निम्नलिखित 121 नियमित पाठ्यक्रम (121 डाइरेक्ट एन्ट्री, 111 एन डी ए, 88 एसीसी) के कैंडिडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2007 से स्थायी रूप से सेना निर्देश ए/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री) सेना निर्देश 53/78 को विसेनि/ए/एस/74 को साथ पढ़ा जाए (एनडीए), सेना निर्देश 55/74 (एसीसी) के अन्तर्गत स्थायी कमिशन प्रदान किया जाता है :-

नाम, आई सी नम्बर, आर्म सर्विस
 संजय सिंह जीना, 69603एफ, इंजीनियर
 योगेश चौहान, 69604के, एसी
 जड्डू बन्सीधर नायडू, 69605एम, सिग्नल
 विनय प्रकाश सिंह, 69606पी, एसी
 आशीष कुमार ओझा, 69607एक्स, इन्फैन्ट्री
 पाटील रवि ध्रुव, 69608ए, ईएमई
 पुनीत खन्ना, 69609एच, इंजीनियर
 चेतन एन बलुलद, 69610एक्स, आर्टी
 भगवंत सिंह, 69611ए, एसी
 गौतम साम्बा, 69612एच, आर्टी
 ज्ञान रंजन साहु, 69613एल, एओसी
 पंकज पाटक, 69614एन, इंजीनियर
 अविनाश स्वाई, 69615डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 जशविन्दर सिंह, 69616वाई, इन्फैन्ट्री
 साप्टक सौरभ रजनिकांत, 69617एफ, मैक
 वाइमेल ताशी शेर्पा, 69618के, एएडी
 गुरप्रताप सिंह, 69619एम, आर्टी
 स्वप्निल नाथुजी राऊत, 69620एफ, आर्टी
 महीपाल सिंह भाटी, 69621के, इन्फैन्ट्री
 इतिज आर्या, 69622एम, इन्फैन्ट्री
 त्रिवेदी स्नेहल अरुणकुमार, 69623पी, एएससी
 संदीप उप्रेती, 69624एक्स, आर्टी
 सौरभ ठाकुर, 69625ए, आर्टी
 प्रदीप सिंह अधिकारी, 69626एच, आर्टी
 जगधने पोयुप प्रलाद, 69627एल, एसी
 दीवेश कुमार, 69628एन, इन्फैन्ट्री

करन शर्मा, 69629डब्ल्यू, इंजीनियर
 विकिरण कुमार दाश, 69630एल, इन्फैन्ट्री
 अरुण कुमार, 69631एन, ईएमई
 धनेन्द्र प्रताप सिंह, 69632डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 शरद वशिष्ठ, 69633वाई, ईएमई
 सिद्धिणा बी मुन्गोली, 69634एफ, इन्फैन्ट्री
 प्रवीन कुमार सिंह, 69635के, इन्फैन्ट्री
 मयंक सक्सेना, 69636एम, एएडी
 अपूर्व रंजन सिंधा, 69637पी, आर्टी
 सुधीर सिंह कालाकोटी, 69638एक्स, इन्फैन्ट्री
 ऋषभ निगम, 69639ए, मैक
 राहुल सिंह, 69640पी, इंजीनियर
 अभिषेक सक्सेना, 69641एक्स, इंजीनियर
 चन्मबसवेश क गुंडे, 69642ए, इन्फैन्ट्री
 हीरा सिंह, 69643एच, इन्फैन्ट्री
 गुरमुख सिंह, 69644एल, इन्फैन्ट्री
 सतेन्द्र सिंह, 69645एन, इंजीनियर
 सौरभ शर्मा, 69646डब्ल्यू, ईएमई
 कीर्ति बलराम जवाधी, 69647वाई, इंजीनियर
 जगन्नाथ बी देसाई, 69648एफ, इंजीनियर
 कृष्णा चन्द्रन पी, 69649के, आर्टी
 स्वरूप सिंह चौहान, 69650वाई, इन्फैन्ट्री
 तरुण एडवर्ड, 69651एफ, आर्टी
 शिशिर पाण्डेय, 69652के, इन्फैन्ट्री
 अजय सिंह भदुरिया, 69653एम, इन्फैन्ट्री
 कल्पेश गोरख कलाल, 69654पी, आर्टी
 विश्वजीत मित्र, 69655एक्स, एओसी
 स्वप्निल चन्द्रशेखर कुलकर्णी, 69656ए, इन्फैन्ट्री
 अवनीश कुमार, 69657एच, एसी
 कार्तिकराज, पी 69658एल, एएससी
 संदीप सिंह, 69659एन, सिग्नल
 डब्ल्यू हितलर मईतई, 69660एच, एओसी
 ज्योति प्रकाश मिश्रा, 69661एल, सिग्नल
 नेप्रेम सोमोकान्ता सिंह, 69662एन, इन्फैन्ट्री
 स्वागत कुमार दास, 69663डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 कुमार सुगन्ध, 69664वाई, एओसी

सुजित कुमार, 69665एफ, आर्टी
 सुनिल दहिया, 69666के, इन्फैन्ट्री
 गौरव थापा, 69667एम, इन्फैन्ट्री
 अर्जुन गुलाटी, 69668पी, इंजीनियर
 चिराग भवेजा, 69669एक्स, इन्फैन्ट्री
 राहुल सिंह, 69670एम, इन्फैन्ट्री
 रितेश कुमार सिंह, 69671पी, आर्टी
 अजय कुमार गिल, 69672एक्स, ईएमई
 अलोक बदोनी, 69673ए, इन्फैन्ट्री
 चेतन कौशिक, 69674एच, आर्टी
 तपन सागवाण, 69675एल, इंजीनियर
 सुमेश कुमार पी, 69676एन, इन्फैन्ट्री
 अरविन्द पी जे, 69677डब्ल्यू, ईएमई
 विक्रम शर्मा, 69678वाई, मैक
 पुनित दत्ता, 69679एफ, इंजीनियर
 आशिश घनकड, 69680डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 सावित विक्रम, 69681वाई, इंजीनियर
 विजेन्द्र सिंह, 69682एफ, इन्फैन्ट्री
 क्षितिज प्रकाश गुप्ता, 69683के, एएडी
 रिषभ तिवारी, 69684एम, आर्टी
 बन्टी माहौरिया, 69685पी, इन्फैन्ट्री
 हेमन्त कुमार देवलाल, 69686एक्स, इन्फैन्ट्री
 बलराम राणा, 69687ए, इन्फैन्ट्री
 गणेश सिंह पोखरिया, 69688एच, इन्फैन्ट्री
 प्रभात मिश्रा, 69689एल, आर्टी
 धोरज कुमार सिंह, 69690ए, ईएमई
 वी विनय भानु रेड्डी, 69691एच, आर्टी
 जशविन्द्र सिंह, 69692एल, ईएमई
 अभिषेक मिश्रा, 69693एन, आर्टी
 सुमन्त महाजन, 69694डब्ल्यू, आर्टी
 पदम्मानाभन स्वामी, 69695वाई, इन्फैन्ट्री
 मुकुल शर्मा, 69696एफ, एएडी
 अरूण सिंह, 69697के, सिग्नल
 मदीअलगन जी, 69698एम, ईएमई
 संभव सागर, 69699पी, इन्फैन्ट्री
 गरूण आनंद, 69700वाई, इन्फैन्ट्री

अमित सिंह, 69701एफ, एओसी
 रविशेखर आर कोट्टूर, 69702के, आर्टी
 पर्वत दान, 69703एम, इन्फैन्ट्री
 ऐलेक्स सेवेस्टीयन, 69704पी, आर्टी
 रंजन कुमार, 69705एक्स, इन्फैन्ट्री
 एस नवनीथ गणेश, 69706ए, इन्फैन्ट्री
 दीपज्योति सैकिया, 69707एच, इन्फैन्ट्री
 अर्जुन रामथ, 69708एल, इंजीनियर
 धीरज पराशर, 69709एन, इन्फैन्ट्री
 बीनु टी एम, 69710एच, आर्टी
 नवनीत जंग थापा, 69711एल, इन्फैन्ट्री
 राहुल सिंह, 69712एन, ईएमई
 शेखर अग्रवाल, 69713डब्ल्यू, मैक
 यशपाल, 69714वाई, इन्फैन्ट्री
 संजीव कुमार, 69715एफ, इंजीनियर
 कमलजीत सिंह, 69716के, इन्फैन्ट्री
 सौरभ पाण्डेय, 69717एम, आर्टी
 कुमुद कुमार यादव, 69718पी, ईएमई
 नीरज शर्मा, 69719एक्स, सिग्नल
 मोहित हुड्डा, 69720एम, एओसी
 अश्वनी सिंह, 69721पी, एओसी
 एस दुर्गा प्रसाद दोरा, 69722एक्स, इंजीनियर
 श्री प्रसाद थापा, 69723ए, आर्टी
 अपूर्व गोयल, 69725एल, इंटी
 अलोक शंकर, 69726एन, इंजीनियर
 उज्ज्वल पटियाल, 69727डब्ल्यू, एसी
 गोपाल मिश्रा, 69728वाई, एओसी
 पारित प्रताप सिंह, 69729एफ, मैक
 हिमांशु गुप्ता, 69730डब्ल्यू, एएडी
 कपिल त्रिपाठी, 69731वाई, इन्फैन्ट्री
 एन तान्दवन, 69732एफ, आर्टी
 जी कालीचरण, 69733के, इन्फैन्ट्री
 प्रतीक शुक्ला, 69734एम, आर्टी
 प्रासून सिंह, 69735पी, इन्फैन्ट्री
 सुमिरन व्यास, 69736एक्स, इन्फैन्ट्री

दलजीत सिंह, 69737ए, इन्फैन्ट्री
 ललित कुमार सिंह, 69738एच, ईएमई
 जी नरेश रेड्डी, 69739एल, आर्टी
 जयप्रकाश सिंह, 69740ए, इन्फैन्ट्री
 अभिनव वर्मा, 69741एच, सिग्नल
 मनीष, 69742एल, आर्टी
 दलीप गुरंग, 69743एन, एओसी
 संदीप आर एच, 69744डब्ल्यू, आर्टी
 अनिल कुमार सामल, 69745वाई, इन्फैन्ट्री
 दीपक उनियाल, 69746एफ, आर्टी
 हरदीप सिंह, 69747के, आर्टी
 वरुणेश राव, 69748एम, एएडी
 अविजीत चौधरी, 69749पी, इंजीनियर
 संजीव कुमार रतन, 69750के, इन्फैन्ट्री
 सर्वजीत सिंह, 69751एम, इन्फैन्ट्री
 रंजन कुमार सिंह, 69752पी, इन्फैन्ट्री
 कुमार अंकुर, 69753एक्स, आर्टी
 नाएल गिल्बर्ट एन्टोनी, 69754ए, एओसी
 अक्षय गिरांश कुमार, 69755एच, इंजीनियर
 संजीव कुमार, 69756एल, एसी
 अश्वनी कुमार पन्डीता, 69757एन, इन्फैन्ट्री
 जय शंकर शर्मा, 69758डब्ल्यू, आर्टी
 पुरण सिंह सलारिया, 69759वाई, ईएमई
 पुलकित अग्रवाल, 69760एन, इन्फैन्ट्री
 विक्की लामोरिया, 69761डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 विक्रम सिंह गौतम, 69762वाई, आर्टी
 सुशांता कुमार जोना, 69763एफ, इन्फैन्ट्री
 दिनेश कुमार, 69764के, एओसी
 विशाल देशवाल, 69765एम, इन्फैन्ट्री
 तापश कुमार डेका, 69766पी, एएडी
 नीलकण्ठन बी, 69767एक्स, इंजीनियर
 समित ममगेन, 69768ए, इंजीनियर
 राहुल सिंह, 69769एच, ईएमई
 तरुण राणा, 69770एक्स, मैक
 शशांक स्वनिया, 69771ए, आर्टी

अंशुभान सिंह, 69772एच, इन्फैन्ट्री
 शशीधरन वी नायर, 69773एन, इन्फैन्ट्री
 वरुण शर्मा, 69774एन, सिग्नल
 अनिल प्रसाद, 69775डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 दिनेश फोगट, 69776वाई, आर्टी
 प्रवीन चौधरी, 69777एफ, इन्फैन्ट्री
 सायत एस बंधोपाध्याय, 69778के, इन्फैन्ट्री
 गोरव मित्रा, 69779एम, इंजीनियर
 विजय चौधरी, 69780के, एफ, इन्फैन्ट्री
 सौरभ जोशी, 69781के, एएडी
 मोहित तिवारी, 69782एम, एएससी
 विकास कुमार, 69783पी, इन्फैन्ट्री
 अरविन्द कुमार, 69784एक्स, इन्फैन्ट्री
 अनिल कुमार एस नायर, 69785ए, आर्टी
 एलिकॉ एम, 69786एच, आर्टी
 भरत पाल यादव, 69787एल, एओसी
 कल्पतरु दास, 69788एन, इन्फैन्ट्री
 निर्मल साही, 69789डब्ल्यू, आर्टी
 अभिषेक कुमार, 69790एल, इन्फैन्ट्री
 सम्राट गायकवाड, 69791एन, ईएमई
 पियुष तिलारा, 69792डब्ल्यू, सिग्नल
 केदार मरकले, 69793वाई, एसी
 मनीष कुमार, 69794एफ, मैक
 कौस्तुभ पाडुरंग जाधव, 69795के, इन्फैन्ट्री
 अमित रोहतगी, 69796एम, इन्फैन्ट्री
 प्रवीन जोशी, 69797पी, इंजीनियर
 कुलदीप भाडु, 69798एक्स, इन्फैन्ट्री
 बोरकर दौलत संपतराव, 69799ए, इंजीनियर
 संतोश चौधरी, 69800के, इन्फैन्ट्री
 अनिल ईश्वर करवल, 69801एम, इंजीनियर
 सफल प्रधान, 69802पी, आर्टी
 सी विनय, 69803एक्स, इंजीनियर
 एश्वर्या जोशी, 69804ए, इन्फैन्ट्री
 अभिषेक सरन पाठक, 69805एच, एएससी
 आशीष तिवारी, 69806एल, आर्टी
 लिनिन जौनसन, 69807एन, आर्टी

संदीप मिश्रा 69808डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री	चन्द्र कान्त शर्मा 69843वाई, इन्फैन्ट्री
भास्कर दत्ता 69809वाई, आर्टी	विशाल शर्मा 69844एफ, ईएमई
सुभाष आर 69810एन, इन्फैन्ट्री	रस्से नितिन रविकांत 69845के, आर्टी
पी बालु फनिकर 69811डब्ल्यू, इंजीनियर	धीरेन्द्र कुमार यादव 69846एम, एओसी
प्रवीण सिंह राणावत 69812वाई, एओसी	सौरभ सिंह मयंक 69847पी, इंजीनियर
सुनिल सिंह 69813एफ, इन्फैन्ट्री	गोस्वामी दिव्यज्योति दलित कुमार 69848एक्स, सिग्नल
हिमांशु ध्यानी 69814के, एओसी	अमित चौबे 69849ए, इंजीनियर
रितेश प्रताप सिंह 69815एम, सिग्नल	उमेश भट्ट 69850पी, इन्फैन्ट्री
योगेन्द्र सिंह 69816पी, इन्फैन्ट्री	हिरेन्द्र सुमरा 69851एक्स, इंजीनियर
अदित्य सिंह 69817एक्स, सिग्नल	गौतम विश्वास 69852ए, इंट
अभीक पुराए 69818ए, इन्फैन्ट्री	उदय मोहन आगा 69853एच, सिग्नल
अंशुल जैन 69819एच, ईएमई	प्रितम विश्वास 69854एल, इंजीनियर
एन प्रवीण कुमार 69820एक्स, इन्फैन्ट्री	प्रसुन द्विवेदी 69855एन, इन्फैन्ट्री
अमर कुमार 69821ए, आर्टी	नितिन गौतम 69856डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
दिपेन्द्र जी अग्निहोत्री 69822एच, एएडी	तनमय अयर 69857वाई, इंजीनियर
शशांक धीरे 69823एल, इंजीनियर	शाबोस्तियन मारबनियांग 69858एफ, एएससी
अंकित यादव 69824एन, इन्फैन्ट्री	विक्रम सिंह 69859के, एएससी
शाफीक अहमद खान 69825डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री	मिश्रा आशिस सुरेन्द्र कुमार 69860वाई, एएडी
भास्करानंद ममगाई 69826वाई, इन्फैन्ट्री	संदीप चौहान 69861एफ, इन्फैन्ट्री
पी विश्वेसवर राव 69827एफ, ईएमई	सुनिल बरतवाल 69862के, इन्फैन्ट्री
विनोद धाडगे 69828के, आर्टी	बैद अरविन्द लालचंद 69863एम, इन्फैन्ट्री
अंकोलेकर दुर्गेशनंद शरद 69829एम, इन्फैन्ट्री	तरूण नेगी 69864पी, ईएमई
पालदे सोमनाथ पुंणा 69830एफ, आर्टी	श्रीधर 69865एक्स, आर्टी
अमरजीत सिंह एलांबम 69831के, मैक	अजय सिंह डोगरा 69866ए, एओसी
विजयानन्दा दास 69832एम, एसी	संजीव यादव 69867एच, सिग्नल
अभिनन्दन दुबे 69833पी, आर्टी	जगमोहन सिंह रावत 69868एल, इन्फैन्ट्री
अमित 69834एक्स, इन्फैन्ट्री	दिवेश कुमार राय 69869एन, आर्टी
किशन डोडवारिया 69835ए, ईएमई	थिटे प्रसाद अनिल 69870एच, इन्फैन्ट्री
अरूण कुमार 69836एच, इन्फैन्ट्री	प्रताप सिंह 69871एल, एएडी
क्रिपाकर एम 69837एल, इन्फैन्ट्री	विवेक बोदला 69872एन, इन्फैन्ट्री
उमेश बाबु थापा 69838एन, इन्फैन्ट्री	अमित कुमार अवस्ति 69873डब्ल्यू, इंजीनियर
वरूण मिश्रा 69839डब्ल्यू, मैक	ढेकणे हर्षवर्धन शाहजी 69874वाई, इन्फैन्ट्री
विजित कुमार 69840एल, इन्फैन्ट्री	मोहित बेरी 69875एफ, आर्टी
शहरयार हैदर 69841एन, इन्फैन्ट्री	पूमलाल एल नाईटे 69876के, मैक
सौरभ माल 69842डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री	

प्रशांत जामवाल 69877एम, एसी
 संदीप सिंह पटानिया 69878पी, इन्फैन्ट्री
 निकेश कौशिक 69879एक्स, इंजीनियर
 वरुण गजारिया 69880एम, आर्टी
 विशाल गुरंग 69881पी, इन्फैन्ट्री
 देव प्रशाद चौधरी 69882एक्स, आर्टी
 हेमन्त मिश्रा 69883ए, ईएमई
 मनीष सिंह 69884एच, ईएमई
 प्रराग गुम्बर 69885एल, इन्फैन्ट्री
 मौ. अशरफ मीर 69886एन, इन्फैन्ट्री
 विपिन 69887डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 हरेन्द्र बिष्ट 69888वाई, इन्फैन्ट्री
 पी डी पी रेड्डी श्रवण सिद्धार्थ 69889एफ, इंटर
 राज सौरभ 69890डब्ल्यू, एएडी
 राजेश सिंह 69891वाई, इन्फैन्ट्री
 संदीप कुमार 69892एफ, मैक
 विष्णु गोपान 69893के, एओसी
 नरेश शर्मा 69894एम, आर्टी
 अपूर्वा कुमार 69895पी, इन्फैन्ट्री
 कमलेश कुमार श्रीवास्तव 69896एक्स, इन्फैन्ट्री
 अक्षत छिब्यर 69897ए, इन्फैन्ट्री
 गिरीश चन्द्र जोशी 69898एच, आर्टी
 मनोज रावत 69899एल, इंजीनियर
 मनमोहन सिंह 69900पी, ईएमई
 प्रदीप कुमार सिंह 69901एक्स, ईएमई
 एम कार्तिकेयन 69902ए, इन्फैन्ट्री
 दीपक कुमार तिवारी 69903एच, इन्फैन्ट्री
 जगदीश के एस 69904एल, इन्फैन्ट्री
 थापा बलबहादुर भीमबहादुर 69905एन, इन्फैन्ट्री
 शौर्यवीर सिंह राठौर 69906डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 कीर्तिमान कार्की क्षेत्री 69907वाई, इन्फैन्ट्री
 संतोष ए के 69908एफ, एसी
 सुभंम पाण्डेय 69909के, एएडी
 भास्कर पाण्डेय 69910वाई, इन्फैन्ट्री
 शिवब्रत मोहंती 69911एफ, इन्फैन्ट्री

दीपक कुमार 69912के, इन्फैन्ट्री
 मयुर अलोरिया 69913एम, आर्टी
 विक्रम सिंह 69914पी, इन्फैन्ट्री
 वैभव श्रीवास्तव 69915एक्स, इंजीनियर
 हीरा सिंह 69916ए, एओसी
 प्रदीप ढिल्लन 69917एच, एसी
 विशाल पारिक 69918एल, इन्फैन्ट्री
 रणदीप हलदर 69919एन, ईएमई
 संदीप थपलियाल 69920एच, आर्टी
 लाल अन्नता 69921एल, इन्फैन्ट्री
 कपिल देव 69922एन, इंजीनियर
 विक्रान्त शर्मा 69923डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 राहुल रावत 69924वाई, इन्फैन्ट्री
 मयंक बिष्ट 69925एफ, एओसी
 रवीकान्त पाण्डेय 69926के, सिग्नल
 मेहन आकाश जयराजन 69927एम, आर्टी
 रघुविन्द्र सी 69928पी, इन्फैन्ट्री
 शान्तनु झारखंडी 69929एक्स, एसी
 सतबीर सिंह 69930एम, आर्टी
 स्टालिन एरोकिया रेक्स 69931पी, इन्फैन्ट्री
 हिम्मत सिंह बंगारी 69932एक्स, एओसी
 अभिताज शर्मा 69933ए, आर्टी
 दीपक चौधरी 69934एच, मैक
 ईश्वर आर वेंकटेश 69935एल, इंजीनियर
 जशप्रीत सिंह 69936एन, आर्टी
 नीदेश सिंह 69937डब्ल्यू, आर्टी
 सुर्वे गिरीश यशवंत 69938वाई, आर्टी
 सिद्धार्थ श्रीवास्तव 69939एफ, इन्फैन्ट्री
 विजय कुमार 69940डब्ल्यू, एएडी
 अमित कुमार मिश्रा 69941वाई, इंजीनियर
 अभिलक्ष्य दत्ता 69942एफ, इन्फैन्ट्री
 मनीष कुमार शर्मा 69943के, इन्फैन्ट्री
 आर शीवा रामा कृष्णनन 69944एम, इन्फैन्ट्री
 कल्याण मोहन पटनायक 69945पी, ईएमई
 भागवत निलेश मारुती 69946एक्स, इन्फैन्ट्री

कौतुक श्रीवास्तव 69947ए, आर्टी	रतिकान्त परिडा 69982एच, इन्फैन्ट्री
प्रशान्त दत्त 69948एच, एओसी	बिजेन्द्र सिंह रावत 69983एल, ईएमई
प्रिंस पी कुरियन 69949एल, इन्फैन्ट्री	अरूण नेगी 69984एन, इंजीनियर
अरविंद अविनाश 69950ए, आर्टी	पराग शर्मा 69985डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
प्रतीक सक्सेना 69951एच, ईएमई	धन बहादुर राना 69986वाई, इंजीनियर
अक्षय कुमार 69952एल, आर्टी	अभिषेक जोशी 69987एफ, आर्टी
अंसुल रावत 69953एन, इंजीनियर	वरूण पराशर 69988के, इन्फैन्ट्री
अतुल कुमार श्रीवास्तव 69954डब्ल्यू, आर्टी	अतिकु उज्जमॉ 69989एम, एओसी
विमल कुमार 69955वाई, एओसी	सुमित शर्मा 69990एफ, मैक
सौरभ राजपूत 69956एफ, इन्फैन्ट्री	दीपेन्द्र सिंह कुशवाह 69991के, आर्टी
रंजन बैनर्जी 69957के, इन्फैन्ट्री	तुषार बचलस 69992एम, आर्टी
अमित कुमार रोशन 69958एम, इन्फैन्ट्री	सौरभ गुप्ता 69993पी, ईएमई
कृष्ण चंद्र गौड 69959पी, आर्टी	गौरव रंजन 69994एक्स, सिग्नल
जगन्नाथ बल्लभ कौशिक मोहन्ती 69960के, एएडी	उदय भनोट 69995ए, इन्फैन्ट्री
अश्वनी कुमार प्रधान 69961एम, ईएमई	गौरव सिंह ठाकुर 69996एच, एएडी
जितेन्द्र यादव 69962पी, आर्टी	शुभेन्दु शेखर 69997एल, एओसी
रणजीत सिंह बिष्ट 69963एक्स, मैक	अभिमन्यु पट्टनिया 69998एन, इंजीनियर
सुनिल पुन्डीर 69964ए, आर्टी	अजय कुमार 69999डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
विनित शर्मा 69965एच, एएससी	रामटेके ललित देवेन्द्र 70000एक्स, आर्टी
जितेन्द्र सिंह सजवाण 69966एल, एसी	बिसाल सिंह 70001ए, इन्फैन्ट्री
मनोज कुमार पाण्डेय 69967एन, इन्फैन्ट्री	अंबर चड्ढा 70002एच, इन्फैन्ट्री
सौरभ राणा 69968डब्ल्यू, सिग्नल	अय्यर ऋषिकांत रविंद्रन 70003एल, आर्टी
लव कुमार क्षेत्री 69969वाई, ईएमई	अनुराग आनन्द 70004एन, इंजीनियर
रवी चन्द्र ए 69970एन, इंजीनियर	मनमोहन मिश्रा 70005डब्ल्यू, आर्टी
आशुतोष गुप्ता 69971डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री	अमित कुमार डिमरी 70006वाई, इन्फैन्ट्री
लौरैमबम सूरज कुमार मैतेई 69972वाई, इन्फैन्ट्री	प्रताप सिंह राठौर 70007एफ, इन्फैन्ट्री
गजदीप पाल 69973एफ, आर्टी	आशुतोष सिंह 70008के, आर्टी
प्रकाश सिंह भंडारी 69974के, इन्फैन्ट्री	अनुप दास के 70009एम, इंजीनियर
अदित्या वंका 69975एम, इंजीनियर	आशिष जी कुमार 70010एफ, ईएमई
आशिस टंडन 69976पी, इन्फैन्ट्री	अंकुर गौतम 70011के, आर्टी
अरविन्द सिंह 69977एक्स, इन्फैन्ट्री	राहुल चौहान 70012एम, इन्फैन्ट्री
मीलान सिंह 69978ए, एओसी	मनीष थापा 70013पी, इंटर
मोहित काकरान 69979एच, इंजीनियर	महीप सिंह 70014एक्स, इन्फैन्ट्री
नीरज जोशी 69980एक्स, इन्फैन्ट्री	मौ. हयात 70015ए, आर्टी
दीपक कुमार 69981ए, एएससी	सौमिक कुमार गांगुली 70016एच, इन्फैन्ट्री

गौरव शर्मा 70017एल, इंजीनियर
 निखिल राज ज्ञानवी 70018एन, इंजीनियर
 किरण कुमार रेड्डी के 70019डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 संजय फ्रेंक 70020एल, आर्टी
 आशिष सिंह 70021एन, आर्टी
 चिरेन्द्र सिंह कोटेजा 70022डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 अभिमन्यु सिंह 70023वाई, एसी
 जयवर्धन पाण्डेय 70024एफ, इंजीनियर
 नरेन्द्र सिंह 70025के, सिग्नल
 आशिष सिंह 70026एम, ईएमई
 मुक्तेश सूरी 70027पी, एसी
 सौजित एस 70028एक्स, सिग्नल
 अमित शंकर झा 70029ए, इंजीनियर
 संजय कुमार 70030पी, मैक
 मनोज कुमार धनकड 70031एक्स, एओसी
 कमल भट्ट 70032ए, इन्फैन्ट्री
 दीपक पान्डेय 70033एच, सिग्नल
 शशि शेखर 70034एल, मैक
 उपेन्द्र कुमार 70035एन, एसी
 गिरिश गुरजाल 70036डब्ल्यू, आर्टी
 सागर राजेन्द्र सोनकांबले 70037वाई, इन्फैन्ट्री
 अरुण यादव 70038एफ, आर्टी
 पाटनकर कौस्तुभ सुनिल 70039के, इन्फैन्ट्री
 विनोद सिंह 70040वाई, एसी
 रोहन महाजन 70041एफ, इन्फैन्ट्री
 विक्रान्त प्रताप सिंह 70042के, एएडी
 गंगेश मणि त्रिपाठी 70043एम, ईएमई
 सौरभ गुरंग 70044पी, इन्फैन्ट्री
 दिवाकर शर्मा 70045एक्स, एएससी
 मयंक बंसल 70046ए, आर्टी
 गौरव गर्ग 70047एच, इंजीनियर
 अनिल कुमार व्यास 70048एल, आर्टी
 पंकज गैरोला 70050एच, इन्फैन्ट्री
 सतेन्द्र सिंह 70051एल, इन्फैन्ट्री

जस्टीन रोशन लकडा 70052एन, एओसी
 विपिन सिंह राणा 70053डब्ल्यू, इंजीनियर
 संदीप सजवाण 70054वाई, ईएमई
 कपिल हुड्डा 70055एफ, आर्टी
 कौस्तुभ सतीश दिघडे 70056के, इन्फैन्ट्री
 रोहित मेहला 70057एम, एएडी
 भोसले धनंजय अर्जुन 70058पी, आर्टी
 वैभव लाटियान 70059एक्स, इन्फैन्ट्री
 संतोष कुमार यादव 70060एम, आर्टी

निलेश चौधरी
 मेजर
 एएमएस-8 वां

सेना सचिव शाखा

सं. 610, दिनांक 01 दिसम्बर 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म--मेजर जनरल रैंक की प्रभावी तिथि

ब्रिगे. आर के यादव (आईसी-27955), 18 कैब--07 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 मई 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. टी के दास (आईसी-30056), सिग्स--24 दिसम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस पी कोच्चर (आईसी-30137), सिग्स--01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए के चढ़ा (आईसी-30143), सिग्स--03 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2007 से दी जाएगी।

ब्रिगे. जे के श्रीवास्तव (वी-00330), आरसीसी--09 नवम्बर 2007।

एन के फूकन
 निदेशक/एमएस(एक्स)

(सेना शाखा)

सं. 611, दिनांक 1 दिसम्बर 2008--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में
वैयक्तिक नं., नाम, आर्म एवं मूल रैंक की तिथि

(आईसी-39453) वैनिस राय, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-39618) सुरिन्दर कुमार, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-39683) बलविन्दर सिंह, एएससी, 15 मार्च 2006

(आईसी-40206) एस कौल, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40298) ए अनिल, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40311) आर चोपड़ा, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40339) वार्ड के कटोच, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40375) एस बी वज्रमाथी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006

(आईसी-40434) एम एस धनोआ, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40564) डी के बिश्नोई, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-37954) एच एस नेगी, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-37968) एम ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40719) एस एन राय, इन्ट, 18 नवम्बर 2006 किन्तु
वरिष्ठता दिनांक 15 मार्च 2006 से बिना वेतन एवं पेन्शन पर
प्रभाव के।

(आईसी-40735) एम एस सलारिया, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40752) डी सैनी, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-40763) भूपिन्दर सिंह, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006

(आईसी-40806) आई जे एस हुण्डल, एएडी, 15 मार्च 2006

(आईसी-40835) आर भाटिया, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40847) राजीव सेठी, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-40862) ए एस रावत, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-40925) ए जोशी, इन्ट, 15 मार्च 2006

(आईसी-40943) आर सी छिल्लर, इन्ट, 15 मार्च 2006

(आईसी-41018) आर माहना, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45006) ए सिरोथिया, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-45009) सुखदीप सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-45010) एस के दास, एएडी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45019) पी एन वर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-45022) के एम सिंह, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45023) आर एस यादव, आर्मी एविएशन, 15 मार्च 2006

(आईसी-45025) आर के शर्मा, एएससी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45033) टी जी एस कुमार, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006

(आईसी-45035) ए के शुक्ला, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-45046) के बुधवार, एसी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45050) तेजबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-45052) वी के पुनिया, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-45054) राकेश अवस्थी, ईएमई, 15 मार्च 2006

(आईसी-45066) एस मेहता, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45067) एम एस रनाडे, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45070) देओराज सिंह, एओसी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45071) विनोद दत्ता, एओसी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45077) एन बसु, आर्टी, 15 मार्च 2006

(आईसी-45083) ए एस सिधू, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-45097) एस बी चौधरी, इन्ट, 15 मार्च 2006

(आईसी-41065) एम सी पन्त, गार्ड्स, 15 मार्च 2006

(आईसी-41066) जे एस धुल, ईएमई, 15 मार्च 2006

(आईसी-41067) जे एस नैन, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41068) ए चौधरी, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41069) सुनील सिंह सुहाग, ईएमई, 15 मार्च 2006

(आईसी-41071) बी मॅथ्यूज, एसी, 15 मार्च 2006

(आईसी-41072) आर सिरोही, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41074) एम एल गुप्ता, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41077) डी चौधरी, ईएमई, 15 मार्च 2006

(आईसी-41078) तरसेम सिंह, एओसी, 15 मार्च 2006

(आईसी-41080) जी गुरुंग, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41081) संजीव गोविला, ईएमई, 15 मार्च 2006

(आईसी-41082) आर के गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41083) ए एल भिंडर, एसी, 15 मार्च 2006

(आईसी-41087) एस एस प्रसाद, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41088) एम बाबा, एसी, 15 मार्च 2006

(आईसी-41089) आर के रैना, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41091) एस एस मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

(आईसी-41093) जाय डेनियल, आर्टी, 15 मार्च 2006

- (आईसी-41102) जे गेमलिन, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41104) ए के मित्रा, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41105) इंदीवर सूद, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41107) के टी श्रीकुमार, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41110) अतुल मिश्रा, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41113) पी बर्मन, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41116) के पी रंजन, आर्मी एविएशन, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41117) जी एस बिष्ट, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41119) एस के अगरवाल, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41121) आर के शर्मा, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41123) जे के सतपथी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41125) विवेक डावर, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41126) आर एस ठाकुर, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41128) पी हितैषी, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41131) पी पी मल्होत्रा, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41133) आर तिवारी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41135) सुनील बी बोधे, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41136) बी मेहता, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41137) ए के दत्ता, एएससी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41139) एम मूलरी, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41141) ए के नरुला, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41144) एस एस नेगी, एएससी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41145) ए भार्गव, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41147) एम एस काला, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41148) बी बी पाण्डे, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41150) एल सी पॉल, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41152) डी आर धीमन, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41154) ए आर गोयल, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41155) एस पी मेहता, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41156) आर जी आर तिवारी, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41161) एच एस वच्चल, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41165) ए के सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41166) सतिन्दर सिंह, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41169) एस के प्रोवर, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41170) वी के पंडित, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41172) बलदेव सिंह, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41174) एम अधिकारी, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41175) ए वी कृष्णा, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41183) एस सी मोहन्ती, गार्ड्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41185) संजीव जैन, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41196) सुधाकर जी, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41203) पी सी पुस्त, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41207) अश्विनी वर्मा, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41210) डी जयदेव, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41211) एम जी जेकरब, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41218) एस वी भोइते, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41220) राजीव साहनी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41223) आर एस रावत, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41224) जी पी एस सन्धू, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41225) नीरज पराशर, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41228) ए के पटनायक, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41230) एस डी मेहता, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41235) एस सैनी, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41239) वी एस कटारया, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41240) संजीव कुमार, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41246) एस के दत्ता, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41249) आलोक सूद, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41251) एस वर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41252) जी एस मान, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41253) सुरेन्द्र सिंह, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41256) पी एस साई, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41257) एस पी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41266) एम एच रिजवी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41273) वाई एस राव, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41287) पी खानीजो, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41289) वो के छात्रे, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41299) पी जी कृष्णा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41303) एस कौशल, एसी, 15 मार्च 2006

- (आईसी-41320) डी एस रूपाल, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41321) एस गोयल, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41323) एस साह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41330) के सी बहूगुना, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41367) उदय सिंह, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41374) बिक्रम सिंह, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41411) सी बी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41413) आर शुक्ला, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41419) सुनील खोसला, एएससी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43164) एस चन्द्रा, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43165) डी के देशमुख, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43166) एस के खन्ना, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43169) महेन्द्र सिंह, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43173) एम एस लाम्बा, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43177) पी आर देशमुख, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43189) ए के सिन्हा, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-43196) एस के पाठक, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45119) वी के त्यागी, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45121) जे एस सोई, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45123) एस घोस, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45126) नरेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45127) जोगिन्दर सिंह, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45129) बी एस यादव, एएससी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45130) कुलजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45133) ज्ञान सिंह, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45138) सुन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45144) पी सी मल्होत्रा, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45151) एस सरकार, इन्ट, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45161) आर के सूदन, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-45168) आर आर हाण्डा, एओसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41461) योगेन्द्र डिमरी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41463) पवन आनन्द, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41464) टी एस रावत, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41465) अजय सिंह, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41466) एम के दत्ता, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41467) बलजीत सिंह, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41470) विरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41471) एस के पराशर, गार्ड्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41473) के राजाशेखर, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41475) एन के ऐरी, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41476) ए के ढींगरा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41477) अर्जुन रावत, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41478) टी एस सदाशिव, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41479) संजीव सोधी, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41481) तरुणदीप कुमार, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41482) बी एस धनोआ, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41483) आर एन जाधव, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41484) वी गर्ग, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41486) मधुसूदन दवे, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41487) संदीप रावत, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41488) राजीव चौधरी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41489) राजेश छाबा, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41490) एस एस दलाल, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41491) सतपाल एहलावत, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41492) सी कोरैया, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41493) एस के जे धोबाले, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41495) एन के खण्डूरी, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41497) अनिल चौधरी, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41498) एस बनर्जी, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41499) के आर आनन्द, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41501) रंजीत घोष, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41503) दलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41505) बलराम सिंह, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41507) अरविन्द कपूर, गार्ड्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41509) के जे एस दिल्ली, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41510) आर के डण्डियाल, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41511) एम जे एस स्याली, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41512) राजीव नन्दा, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41518) दया चन्द, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006

- (आईसी-41520) प्रदीप अरोड़ा, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41521) एच गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41522) ए भूयां, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41524) एस एस शर्मा, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41528) हरिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41529) एन कपूर, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41530) मनदीप सिंह, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41536) वासुदेव पाण्डे, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41541) ए के अरोड़ा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41544) दीपक तलवार, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41545) एच एस कंधोला, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41546) जी एस सरोया, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41547) रोहित गुप्ता, मेक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41548) समीर मानसिंह, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41549) अनुराग भसीन, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41551) टी सी उनियाल, एएससी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41553) श्रीनिवास राय, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41555) पी वी मोहन, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41556) आर के राणा, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41557) आर के भट, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41563) वी के शर्मा, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41564) ए भल्ला, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41565) दिलीप बनर्जी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41566) वी के सिंह, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41568) राजेश राणा, एओसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41572) ए के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41574) एस मनचन्दा, एएससी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41580) पी एस मंगत, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41581) अरविन्द यादव, मेक इन्फैन्ट्री, 17 अप्रैल 2008 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 मार्च 2006 से बिना वेतन एवं पेन्शन पर प्रभाव के
- (आईसी-41582) एल आई सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41585) एम के के ऐयर, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41587) डी एल चन्दानी, इएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41592) संजीव जसवाल, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41593) डी जे सिंह, एओसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41594) पृथ्वीराज, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41595) एम के एस यादव, एएससी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41596) बी चटर्जी, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41597) बी बी चौहान, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41598) एस जगपाल, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41599) आर के एस कुशवाहा, एओसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41603) बी एम थामस, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41604) आर जोसफ, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41605) आर पी एस कहलों, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41610) मनोज ऋषि, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41613) एस के आचार्य, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41620) डी के दाश, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41623) के सत्यनारायण, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41624) एच एस चटवाल, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41625) वी मुखर्जी, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41628) जी वेणु, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41629) अरूण सभरवाल, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41636) जे एस गुजराल, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41639) वी कुमार, एएडी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41641) एस दीक्षित, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41646) एन के खजूरिया, ईएमई, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41649) बलविन्दर सिंह, गाईस, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41651) टी सम्भैया, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41659) पी कुमार, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41662) ए नन्दा, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41664) आर चिमनी, एसी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41665) हेमन्त भारद्वाज, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41667) आर रैना, आर्मी एविएशन, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41668) ए के कोहली, आर्टी, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41672) एस के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41680) अशोक अब्बे, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41686) आई एस रेखी, इन्जीनियर्स, 15 मार्च 2006
- (आईसी-41688) जी एस शर्मा, एएडी, 15 मार्च 2006

(आईसी-41695) पी के नैथानी, इंजीनियर्स, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41696) आर के हुडा, आर्टी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41698) सी आर दलाल, एएससी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41701) अजय गुप्ता, आर्टी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41702) एमएलएम बाबू, आर्टी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41704) एम के ए कुमार, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41720) एस के भोला, ड्रैमई, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41722) एस शर्मा, आर्टी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41731) आर के मोंगिया, गार्ड्स, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41732) एन के घई, ड्रैमई, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41738) जसदीप सिंह, एएससी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41741) एस के कुरूप, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41742) वी शर्मा, एसी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41758) आर एस ठाकुर, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41760) इकबाल सिंह, ड्रैमई, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41762) जी मुरली, आर्टी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41765) ए कपूर, आर्टी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41769) एस कपूर, मैक इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41790) अरविन्द माथुर, ड्रैमई, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41791) पी पी पी सिंह, आर्टी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41802) एस एस जज, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41827) पीटर राजू, आईसी 19 जुलाई 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 मार्च 2006 से बिना वेतन एवं पेन्शन पर प्रभाव के
 (आईसी-41828) एस एस मिन्हास, आईसी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41830) वी एन चतुर्वेदी, आईसी, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41836) अशोक कौल, आईसी, 01 मई 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 मार्च 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के
 (आईसी-41717) पी एस बेन्स, इन्फैन्ट्री, 15 मार्च 2006
 (आईसी-41079) एस एन वसाडे, गार्ड्स, 15 मार्च 2006
 (आईसी-43651) पी आर स्वामीनाथन, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
 (आईसी-43628) कुलदीप कुमार, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
 (आईसी-43630) सुरेश मेनन, सिग्नल्स, 15 मार्च 2006
 (एसएल-03045) एन एस चौहान, एसएलआरओ, 15 मार्च 2006
 (एसएल-03048) ए पी कुमेरी, एसएलटीईओ 27 जून 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 मार्च 2006 से बिना वेतन एवं पेन्शन पर प्रभाव के
 (आईसी-41823) बी के रेड्डी, एमएफ, 15 मार्च 2006

(आईसी-41485) संजय सांगवान, एसी, 15 मार्च 2006

अजय गोयल
उप निदेशक
एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 612, दिनांक 02 दिसम्बर 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एसएल)

ले. से कप्तान

एसएल सं., नाम और आर्म

(एसएल-4891) दीक्षित अनिल नीलकंठ, टीओटी

(एसएल-4892) धन सिंह, टीओटी

(एसएल-4893) ए चार्लेस प्राबाकर जोशवा, टीओटी

(एसएल-4894) बिमल दुबे, टीओटी

(एसएल-4895) नरसिम्हा प्रभु एम, टीओटी

(एसएल-4896) मोहम्मद शेरिफ एच, टीओटी

(एसएल-4897) शिव कुमार, टीईओ

(एसएल-4898) बिजु लाल एस एस, एटीओ

(एसएल-4899) पदमाजन पी के, आरओ

(एसएल-4900) दुर्गेश कुमार सिंह, आरओ

(एसएल-4901) राजे राम, आरओ

(एसएल-4902) लक्ष्मी धर भुयान, आरओ

(एसएल-4903) परविन्दर कुमार, आरओ

(एसएल-4904) अमरजीत, आरओ

(एसएल-4905) विश्वजीत फानी, आरओ

(एसएल-4906) अनुप कुमार सेनगुप्ता, आरओ

(एसएल-4907) मनोरंजन पीडी सिन्हा, आरओ

(एसएल-4908) सुखा राम चौधरी, आरओ

(एसएल-4909) वेद प्रकाश चन्द्र जोशी एस एम, आरओ

(एसएल-4910) जानागा जानकी राव, आरओ

(एसएल-4911) डोम चार्लेय पी ए, एओ

(एसएल-4912) गोगवाले अनिल कशाबा, आरओ

(एसएल-4913) कृष्ण कुमार, आरओ	(एसएल-4950) गिरीश कुमार यू, आईओएवी
(एसएल-4914) मृणाल पांडा, आरओ	--08 जुलाई 2008
(एसएल-4915) मोहम्मद बाबू, आरओ	आई सी सं., नाम आर्म और कप्तान दिनांक से
(एसएल-4916) अस्तात्रना महाना, आईसीओ	(आईसी-61037), दीपक राठोर, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
(एसएल-4917) के मधु कुमार, एओ	(आईसी-63987) आनंद सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2006
(एसएल-4918) रंधीर मिश्रा, आरओ	(आईसी-65554) संदीप कुमार, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
(एसएल-4919) विनसन टीवी, आरओ	(आईसी-65833) के जे थोमस, आर्टी, 08 नवम्बर 2005
(एसएल-4920) विनोद कुमार, आरओ	(आईसी-65845) सिद्धार्थ विजय शेखन, इन्फैन्ट्री, 08 नवम्बर 2005
(एसएल-4921) महेन्द्र सिंह, आरओ	(आईसी-65848) खुशवंत मालवीय, एओसी, 08 नवम्बर 2005
(एसएल-4922) सरवेश सिंह यादव, आरओ	(आईसी-65867) रनदीप मलिक, इन्फैन्ट्री, 08 नवम्बर 2005
(एसएल-4923) गुजर अतुल नामदेव, आरओ	(आईसी-67057) धीरेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री, 11 जून 2007
(एसएल-4924) राज कमल चटोपाध्याय, आरओ	(आईसी-67288) दिपांकर चौधरी, एईसी, 11 जून 2007
(एसएल-4925) शिरसथ मचिन्द्र राधाकृष्ण, टीईओ	(आईसी-67752) संदीप झा, इंजीनियर्स 10 दिसम्बर 2007
(एसएल-4926) टी सेनथील कुमार, आरओ	(आईसी-68463) योगेश चन्द्र, इंजीनियर्स, 13 जून 2006
(एसएल-4927) ओम प्रकाश पाठक, आरओ	अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएस)
(एसएल-4928) मनीष चावला, आरओ	ले. से कप्तान
(एसएल-4929) जगताप दीपक मधुकर, आरओ	डब्ल्यू एस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता
(एसएल-4930) राजेश कुमार, आरओ	तिथि, कप्तान दिनांक से
(एसएल-4931) पैट्रिक पी एन, आरओ	01014 ज्योति बिष्ट, एओसी, 19 मार्च 2005, डब्ल्यूएसईएसओ-25
(एसएल-4932) राम प्रकाश, आरओ	(एनटी), 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2008
(एसएल-4933) तरसेम सिंह, आरओ	01064 मेहरोत्रा शिखा सुशील कुमार, इन्ट, 19 मार्च 2005,
(एसएल-4934) राजेश सिंह पाल, आरओ	डब्ल्यूएसईएसओ-25 (एनटी), 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2008
(एसएल-4935) रकम सिंह बंसल, आरओ	01218 अमरजोत कौर, सिग्नल्स, 18 सितम्बर 2004,
(एसएल-4936) रविश कुमार, एईई/ई/एम/आईईएम	डब्ल्यूएसईएसओ-28 (टी), 18 मार्च 2005, 18 मार्च 2007
(एसएल-4938) के नीलाकांता राजू, आरओ	01268 सोनू एएडी, 18 सितम्बर 2004, डब्ल्यूएसईएसओ-28 (टी),
(एसएल-4939) अक्षयावर नाथ राय, एईई/ई/एम/आईईएम	18 मार्च 2005, 18 मार्च 2007
(एसएल-4940) महादेव, आरओ	अल्पकालीन सेवा कमीशन (मैन)
(एसएल-4941) नीरज कुमार श्रीवास्तव, आरओ	ले. से कप्तान
(एसएल-4942) पाटिल तानाजी रामचन्द्र, आरओ	एस एस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता
(एसएल-4943) राजेश जी के, आरओ	तिथि, कप्तान दिनांक से
(एसएल-4944) बिजेन्द्र, आरओ	41514 भाष्कर राय, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80
(एसएल-4945) राजेश त्रिवेदी, आरओ	(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2008
(एसएल-4946) तुहिन कांता तह, आरओ	41569 अंकुश प्रताप, इन्ट, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80
(एसएल-4947) जोशी नितिन कुमार जेसंगलाल, आरओ	(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2008
(एसएल-4948) हेमंत कुमार, आरओ	41645 ग्यानेन्द्र सिंह परमार, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005,
(एसएल-4949) महेन्द्र दास एन के, आईओएवी	एसएससी-80 (एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2008

41699 तन्मय राहा राय, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80 (एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2008

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एमएस-8सी

थल सेना शाखा

सं. 613, दिनांक 02 दिसम्बर 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (लैबोरेटरी असिस्टेंट)

सूबेदार उमाकांत मलिक (जेसी-692619डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-692624एफ), 01 फरवरी 2008

सूबेदार एम जफर आलम (जेसी-692630पी), 01 मई 2008

स्थायी सूबेदार मेजर (फार्मासिस्ट)

सूबेदार उदय प्रताप सिंह (जेसी-691149के), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार हरी लाल कुशवाहा (जेसी-691274एन), 01 फरवरी 2008

सूबेदार श्री नारायण (जेसी-691277एफ), 01 जून 2008

सूबेदार जगमाल सिंह (जेसी-691432एक्स), 01 जून 2008

स्थायी सूबेदार मेजर (साईकैट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट)

सूबेदार अजब सिंह (जेसी-692693एक्स), 01 दिसम्बर 2007

स्थायी सूबेदार मेजर (डेंटल हाईजीनिस्ट)

सूबेदार जय सिंह (जेसी-692689पी), 01 जनवरी 2008

स्थायी सूबेदार मेजर (डेंटल तकनीशियन)

सूबेदार राम बहादुर (जेसी-218615एक्स), 01 अप्रैल 2008

स्थायी सूबेदार मेजर (डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट)

सूबेदार उमर के (जेसी-692219के), 01 जून 2008

सूबेदार सोमासेखरन पिल्लई एम (जेसी-692581एक्स), 01 जुलाई 2008

स्थायी सूबेदार (लैबोरेटरी तकनीशियन)

नायब सूबेदार जय पाल सिंह (जेसी-695235एम), 01 दिसम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (लैबोरेटरी असिस्टेंट)

नायब सूबेदार शैलेन्द्र कुमार (जेसी-695236पी), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-695228डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार अरून कुमार (जेसी-695237एक्स), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार सोमपाल सिंह (जेसी-695271एक्स), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार राकेश लाल (जेसी-695238ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बिशू प्रसाद शर्मा (जेसी-695239एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राम खेलावन मौर्या (जेसी-695324एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार हीरा झा (जेसी-695325एन), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-695429पी), 01 जून 2008

स्थायी सूबेदार (हेल्थ असिस्टेंट)

नायब सूबेदार रमा कान्त पाण्डेय (जेसी-692218एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार नरेन्द्र प्रसाद बेहरा (जेसी-692249एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार प्रेम कुमार (जेसी-692549एच), 01 अगस्त 2008

स्थायी सूबेदार (साईकैट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-694829एफ), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार वकील राय (जेसी-694873वाई), 01 अगस्त 2008

स्थायी सूबेदार (डेंटल हाईजीनिस्ट)

नायब सूबेदार अवधेश कुमार सिंह (जेसी-694714एफ), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार विवेकानन्द मण्डल (जेसी-694777के), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार शिवेन्द्र नारायण पाण्डेय (जेसी-694812एफ), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार मोहम्मद इजरायल अली (जेसी-694813के), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार सुरेश कुमार रतन (जेसी-694814एम), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार राम दीन (जेसी-695125एक्स), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार नितेश्वर प्रसाद सिंह (जेसी-695062ए), 01 मई 2008

नायब सूबेदार पदमा कुमार इ जी (जेसी-695082एन), 01 जून 2008

नायब सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-695328एफ), 01 जून 2008

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-695329के), 01 जून 2008

स्थायी सूबेदार (स्पेशल ट्रीटमेन्ट असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार ठाकुर (जेसी-695126ए), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार मथले गोविन्द कृष्णा (जेसी-695169पी), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार भेरब चरन साहू (जेसी-695170के), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार विनोद प्रसाद सिंह (जेसी-695209एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार चंचल सिंह (जेसी-695188ए), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार गोडबोले हरीश चन्द्रा लक्ष्मण (जेसी-695387एन), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार अरून कुमार सिंह (जेसी-695443एफ), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार जय प्रकाश नारायण (जेसी-695386एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-695444के), 01 जून 2008

स्थायी सूबेदार (डेन्टल तकनीशियन)

नायब सूबेदार जालीम राम गुजर (जेसी-693770एन), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार जगपाल शर्मा (जेसी-693937एम), 01 जून 2008

नायब सूबेदार पुष्पेन्द्र कुमार (जेसी-693939एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार कुन्जू मोइदीन सी आई (जेसी-693940एम), 01 जून 2008

स्थायी सूबेदार (डेन्टल ऑपरेशन रूम असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार अवधेश चन्द्र (जेसी-694227एफ), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार कोल्ला राम कृष्णा (जेसी-694296वाई), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार प्रफुल्ल चन्द्र सत्यार्थी (जेसी-694533डब्ल्यू), 01 जून 2008

नायब सूबेदार मदन लाल रैजादा (जेसी-694534वाई), 01 जून 2008

नायब सूबेदार राम बचन शर्मा (जेसी-694695एफ), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार भरत सिंह शिरवाग (जेसी-694535एफ), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-694669ए), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार अजीत कुमार तिवारी (जेसी-694536के), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार कोरत्राजा ए (जेसी-694670पी), 01 सितम्बर 2008

स्थायी सूबेदार मेजर (नर्सिंग तकनीशियन)

सूबेदार अखिलेश कुमार सक्सेना (जेसी-693058वाई), 01 फरवरी 2007

सूबेदार कंवर भवानी सिंह (जेसी-693064एम), 01 फरवरी 2007

सूबेदार करनवीर (जेसी-693069एल), 01 फरवरी 2007

सूबेदार दयाल शरन वर्मा (जेसी-693139वाई), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार सत्यानन्द सिंह यादव (जेसी-693071एच), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी-693143एफ), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार गंगा बिशन सिंह चौहान (जेसी-693074डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार पैमोदे दादा साहेब एकनाथ (जेसी-693063के), 01 जनवरी 2008

सूबेदार राजीव कुमार मिश्रा (जेसी-693078एम), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जेसी-693243एम), 01 जून 2008

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग तकनीशियन)

नायब सूबेदार अबानी काँता पलाई (जेसी-694245एच), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार आर जीवानन्द (जेसी-694249ए), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार कौशिक (जेसी-694250पी), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार गोकुल सिंह रौतेला (जेसी-694251एक्स), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार करमवीर (जेसी-694252ए), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार विश्वजीत घोष (जेसी-694254एल), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार शैलेश कुमार मौर्या (जेसी-694256डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार उमा रमन पाण्डेय (जेसी-694257वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार नन्द राम यादव (जेसी-694259के), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार पाटिल संजय सुवरन (जेसी-694260वाई), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार कीरित बल्लभ खोलिया (जेसी-694262के), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार जीवन चन्द्र आर्या (जेसी-694263एम), 01 अप्रैल 2008

स्थायी सूबेदार (फार्मासिस्ट)

नायब सूबेदार नतेशा नायक (जेसी-693499पी), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार रूल्दा राम पोसवाल (जेसी-693646एम), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार सेल्वा कुमार एस (जेसी-693953के), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-693954एम), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राजाचन्द्रन मथरादन (जेसी-693964डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार एन मरिअप्पन (जेसी-694035के), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार सजीवन पिल्ललाई एस (जेसी-694105एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार जेरे विवेक दयाराम (जेसी-694143एन), 01 जून 2008

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-694152पी), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार वेनू गोपालन के वी (जेसी-694144डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

स्थाई नायब सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेन्ट)

हवलदार मुरलीधरन के पी (सं. 13953864एफ अब जेसी-695820एम), 02 जनवरी 2007*

हवलदार जॉन पीटर मसीह (सं. 13953860एल अब जेसी-695821पी), 02 जनवरी 2007*

हवलदार बृज किशोर पाण्डेय (सं. 13953870पी अब जेसी-695822एक्स), 12 जनवरी 2007*

हवलदार एस के अब्दुर रशीद (सं. 13953880वाई अब जेसी-695823ए), 18 जनवरी 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार प्रोबीर सिकधर (सं. 13953840एक्स अब जेसी-696033एक्स), 01 जून 2007*

हवलदार चिन्ता रन्जन मंडल (सं. 13953904एक्स अब जेसी-696034ए), 11 जून 2007*

हवलदार आनन्द चन्द्र रॉय (सं. 13953905ए अब जेसी-696035एच), 06 जून 2007*

हवलदार हीरेन कुमार दास (सं. 13953901के अब जेसी-696153डब्ल्यू), 01 जून 2007*

हवलदार पुरुषोत्तम सिंह (सं. 13954035ए अब जेसी-696036एल), 01 जून 2007*

हवलदार भीभूति भूषण महाराना (सं. 13954054एल अब जेसी-696037एन), 01 जून 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रविराम दास (सं. 13953476के अब जेसी-696038डब्ल्यू), 08 सितम्बर 2007*

हवलदार उत्तम चन्द (सं. 13954029एम अब जेसी-696039वाई), 02 जुलाई 2007*

हवलदार कलिपडा दास (सं. 13954014के अब जेसी-696275ए), 02 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 02 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 13954084एच अब जेसी-696040एन), 01 अगस्त 2007*

हवलदार जगदीश चन्द्र आचार्य (सं. 13954091वाई अब जेसी-696041डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007*

हवलदार राम पाल सिंह (सं. 13954093के अब जेसी-696042वाई), 06 अगस्त 2007*

हवलदार रमेश भाई अमृत लाल (सं. 13954098एच अब जेसी-696043एफ), 01 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राम बाबू सिंह (सं. 13953578ए अब जेसी-696159एक्स), 09 फरवरी 2008*

हवलदार महाबीर प्रसाद सैनी (सं. 13954096एक्स अब जेसी-696044के), 01 सितम्बर 2007*

हवलदार अनूप कुमार रॉय (सं. 13954109के अब जेसी-696045एम), 07 सितम्बर 2007*

हवलदार राम बिलास (सं. 13954149एल अब जेसी-696046पी), 07 सितम्बर 2007*

हवलदार बीर बहादुर सिंह (सं. 13954150ए अब जेसी-696047एक्स), 01 सितम्बर 2007*

हवलदार उमा शंकर सिंह कुशवाहा (सं. 13954156एफ अब जेसी-696048ए), 19 सितम्बर 2007*

हवलदार भैया लाल (सं. 13954161एम अब जेसी-696049एच), 17 सितम्बर 2007*

हवलदार पीयूष सी एच संगम (सं. 13954226पी अब जेसी-696050एक्स), 21 सितम्बर 2007*

हवलदार गनोरे मंडल (सं. 13954187एफ अब जेसी-696132ए), 13 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश पाल सिंह (सं. 13954183एल अब जेसी-696133एच), 27 अक्टूबर 2007*

हवलदार भगीरथी मुण्डा (सं. 13954248एन अब जेसी-696134एल), 29 अक्टूबर 2007*

हवलदार राजेन्द्रन एस (सं. 13954281एल अब जेसी-696118एन),
24 अक्टूबर 2007 *

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 3382008एक्स अब जेसी-696135एन),
22 अक्टूबर 2007 *

हवलदार बाम देव (सं. 13954331एल अब जेसी-696119डब्ल्यू),
26 नवम्बर 2007 *

हवलदार पूरन चन्द सैनी (सं. 13954348वाई अब जेसी-696156के),
31 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार योगेश चन्द्र सैनी (सं. 13954347डब्ल्यू अब जेसी-
696140वाई), 22 अक्टूबर 2007 *

हवलदार चन्द्रकांत कोलेकर (सं. 13954373वाई अब जेसी-
696136डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2007 *

हवलदार बंध नाथ प्रसाद राय (सं. 13954362ए अब जेसी-
696137वाई), 01 नवम्बर 2007 *

हवलदार तेज बहादुर गुरूंग (सं. 13954407ए अब जेसी-696138एफ),
29 अक्टूबर 2007 *

हवलदार देव नाथ यादव (सं. 13954448के अब जेसी-696120एल),
10 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अरून कुमार सिंह (सं. 13954453पी अब जेसी-
696121एन), 08 नवम्बर 2007 *

हवलदार ओमबीर सिंह (सं. 13954476डब्ल्यू अब जेसी-696157एम),
05 नवम्बर 2007 *

हवलदार सलेक चन्द (सं. 13954474एल अब जेसी-696158पी),
31 दिसम्बर 2007 *

हवलदार सुनील प्रसाद के (सं. 13954544वाई अब जेसी-
696122डब्ल्यू), 16 नवम्बर 2007 *

हवलदार गौरन्गा चन्द्र राय (सं. 13954531एफ अब
जेसी-696139एफ), 28 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम लाल हंसदा (सं. 13954533एम अब जेसी-
696160एम), 14 दिसम्बर 2007 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13954536ए अब जेसी-696123वाई),
07 दिसम्बर 2007 *

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 13954527वाई अब जेसी-696125के),
27 नवम्बर 2007 *

हवलदार जय प्रकाशन के के (सं. 13954583एक्स अब जेसी-
696124एफ), 23 नवम्बर 2007 *

हवलदार प्रेमनन्द गोवोंकर (सं. 13954588डब्ल्यू अब जेसी-
696161पी), 03 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार राना (सं. 13954625वाई अब जेसी-
696126एम), 01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार समवासीवन एम (सं. 13954688एफ अब जेसी-
696162एक्स), 22 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश राय (सं. 13953540डब्ल्यू अब जेसी-696163ए),
01 जनवरी 2008 *

हवलदार वीरेन्द्र सिंह (सं. 13954137डब्ल्यू अब जेसी-696164एच),
01 जनवरी 2008 *

हवलदार राकेश सिंह (सं. 13954768वाई अब जेसी-696165एल),
01 जनवरी 2008 *

हवलदार रामतेज सिंह (सं. 13954749एन अब जेसी-696166एन),
01 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार तन्वीर अहमद (सं. 13954727पी अब जेसी-696174एम),
12 फरवरी 2008 *

हवलदार पुजारी पाण्डुरंग सायप्पा (सं. 13954771वाई अब जेसी-
696167डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13954715ए अब जेसी-696168वाई),
06 फरवरी 2008 *

हवलदार वीरेन्द्र सिंह (सं. 13954729ए अब जेसी-696175पी),
13 फरवरी 2008 *

हवलदार नरेन्द्र बहादुर (सं. 13954734एल अब जेसी-696169एफ),
09 फरवरी 2008 *

हवलदार बाबू लाल (सं. 13954705डब्ल्यू अब जेसी-696170डब्ल्यू),
08 फरवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार केशव दत्त जोशी (सं. 13954726एम अब जेसी-
696171वाई), 01 फरवरी 2008 *

हवलदार हर भजन सिंह (सं. 13954782एल अब जेसी-696172एफ),
01 फरवरी 2008 *

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 13954902वाई अब जेसी-696173के),
06 फरवरी 2008 *

हवलदार मोती लाल रामकलप यादव (सं. 13954936एम अब जेसी-
696176एक्स), 18 फरवरी 2008 *

हवलदार विश्राम श्रीवास्तव (सं. 13954911ए अब जेसी-696276एच),
24 फरवरी 2008 *

हवलदार उन्नी कृष्णन नायर आर (सं. 13955000डब्ल्यू अब जेसी-
696277एल), 27 फरवरी 2008 *

हवलदार के तिरुवेगदम (सं. 13955116एम अब जेसी-696278एन),
28 फरवरी 2008 *

हवलदार मो. छतर शोख (सं. 13955144वाई अब जेसी-
696279डब्ल्यू), 23 फरवरी 2008 *

हवलदार शम्भू साहनी (सं. 13955135एक्स अब जेसी-696280एल),
01 फरवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 13955134पी अब जेसी-696281एन),
25 फरवरी 2008 *

हवलदार गजेन्द्र कुमार (सं. 13955118एक्स अब जेसी-696282डब्ल्यू),
28 फरवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार आनन्द प्रकाश गोरियाल (सं. 13954368एम अब जेसी-
696292ए), 28 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 29 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार दिना नाथ ठाकुर (सं. 13955136ए अब जेसी-696283वाई),
03 मार्च 2008 *

हवलदार हरि कुमार टी (सं. 13954543डब्ल्यू अब जेसी-696284एफ),
01 मार्च 2008 *

हवलदार वीरेन्द्र सिंह (सं. 13954722डब्ल्यू अब जेसी-696285के),
13 मार्च 2008 *

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 13955173एन अब जेसी-696286एम),
03 मार्च 2008 *

हवलदार चन्द्र कांत नारायण देसाई (सं. 13955256वाई अब
जेसी-696287पी), 03 मार्च 2008 *

हवलदार गोपाल चन्द्र सरकार (सं. 13955251ए अब जेसी-
696440ए), 03 मार्च 2008 *

हवलदार परशुराम सिंह कुशावाहा (सं. 13955216एक्स अब जेसी-
696288एक्स), 04 मार्च 2008 *

हवलदार शिव नाथ राम (सं. 13955215पी अब जेसी-696289ए),
01 मार्च 2008 *

हवलदार लुटन महतो (सं. 13954664एक्स अब जेसी-696290पी),
05 मार्च 2008 *

हवलदार रामजी कसरी पारथी (सं. 13955236एल अब जेसी-
696293एच), 01 मार्च 2008 *

हवलदार कैलाश चन्द्र कैप (सं. 13955276एम अब जेसी-
696291एक्स), 01 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बलराम साहू (सं. 13955327पी अब जेसी-696314एन),
01 अप्रैल 2008 *

हवलदार नर बहादुर मगर (सं. 13955360एम अब जेसी-696317एफ),
01 अप्रैल 2008 *

हवलदार रमेश कुमार (सं. 13955349एन अब जेसी-696315डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (सं. 13955362एक्स अब जेसी-
696318के), 01 अप्रैल 2008 *

हवलदार श्याम देव सिंह (सं. 13955430ए अब जेसी-696316वाई),
01 अप्रैल 2008 *

हवलदार गंगाधर गौडा (सं. 13955433एन अब जेसी-696441एच),
28 अप्रैल 2008 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार भोला नायक (सं. 13955452वाई अब जेसी-696442एल),
01 मई 2008 *

हवलदार श्याम सुन्दर सिंह (सं. 13955484एफ अब जेसी-
696443एन), 01 मई 2008 *

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 13955497वाई अब जेसी-696444डब्ल्यू),
02 मई 2008 *

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 13955490पी अब जेसी-696445वाई),
03 मई 2008 *

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 13955547वाई अब जेसी-696446एफ),
01 मई 2008 *

हवलदार मदन सिंह (सं. 13955548एफ अब जेसी-696447के),
01 मई 2008 *

हवलदार गोबिन्द सिंह बिरोरिया (सं. 13955549के अब जेसी-
696448एम), 01 मई 2008 *

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 13955531एम अब जेसी-696449पी),
01 मई 2008 *

हवलदार सत्य प्रकाश यादव (सं. 13955527एल अब जेसी-696450के), 24 मई 2008*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार कौशिक (सं. 13955554पी अब जेसी-696451एम), 02 जून 2008*

हवलदार राधा कृष्णन के (सं. 13955713एफ अब जेसी-696452पी), 01 जून 2008*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 13955574एच अब जेसी-696453एक्स), 01 जुलाई 2008*

हवलदार रविन्द्र ठाकुर (सं. 13955581वाई अब जेसी-696454ए), 01 जुलाई 2008*

हवलदार मो. मुक्ता दिल एस के (सं. 13955668ए अब जेसी-696455एच), 01 जुलाई 2008*

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 13955637ए अब जेसी-696456एल), 02 जुलाई 2008*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक)

आर आर टी रविकांत मिश्रा (सं. 695482ए अब जेसी-695482ए), 09 सितम्बर 2006

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 09 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

आर आर टी वेद प्रकाश (सं. 695548एल अब जेसी-695548एल), 02 दिसम्बर 2006

आर आर टी अरविन्द कुमार सिंह (सं. 15476037एफ अब जेसी-695769एक्स), 02 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

आर आर टी महाशय महेन्द्र तिवारी (सं. 13987059के अब जेसी-695938एन), 07 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

आर आर टी रविन्द्र प्रसाद मिश्रा (सं. 6937885वाई अब जेसी-695938एन), 08 सितम्बर 2008

आर आर टी शशी भूषण (सं. 15419219के अब जेसी-696155एफ), 08 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

स्थाई नायब सूबेदार (एस के टी)

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 13961508डब्ल्यू अब जेसी-695933पी), 14 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13963726एन अब जेसी-695971एल), 11 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार नन्दा कुमार प्रसाद (सं. 13960551एल अब जेसी-696004एच), 01 सितम्बर 2007*

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13961376एन अब जेसी-696005एल), 01 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रमाकांत विश्वकर्मा (सं. 13959088एच अब जेसी-696369एक्स), 10 अप्रैल 2008*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बृज किशोर सिंह (सं. 13963472एफ अब जेसी-696367एम), 01 मई 2008*

हवलदार विजयन ई (सं. 13962053एक्स अब जेसी-696370एम), 01 मई 2008*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार उन्नीकृष्णन पिल्लई वी (सं. 13962140एल अब जेसी-696427डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

स्थाई नायब सूबेदार (शैफ हास्पिटल)

हवलदार मोहन बरदेवा (सं. 13964487डब्ल्यू अब जेसी-696006एन), 01 सितम्बर 2007*

हवलदार कृतंजय कुमार उपाध्याय (सं. 13964495पी अब जेसी-696007डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार दीवान सिंह (सं. 13964631ए अब जेसी-696129ए), 29 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम प्रताप तिवारी (सं. 13964471एल अब जेसी-696247एन), 27 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार दशरथ शाह (सं. 13964876डब्ल्यू अब जेसी-696428वाई), 08 जुलाई 2008*

हवलदार एम बालाशेकरन (सं. 13965207के अब जेसी-696429एफ), 01 जुलाई 2008*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

कुलवन्त राणा
अवर सचिव

सं. 614, दिनांक 3 दिसम्बर 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करती हैं :--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार जय प्रकाश प्रसाद (जेसी-267328एक्स), 16 अगस्त 2008/01 जून 2008*

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-268506एफ), 22 जून 2008/01 जून 2008*

नायब सूबेदार कमलेश चन्दर (जेसी-267542ए), 08 अगस्त 2008/04 जून 2008*

नायब सूबेदार मनीकान्त झा (जेसी-268393के), 23 जून 2008/14 जून 2008*

नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार योगिक (जेसी-267512एच), 30 जून 2008

नायब सूबेदार कस्तूरी लाल शर्मा (जेसी-265821एम), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-267428एच), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार रोहितासव यादव (जेसी-267678के), 10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008*

नायब सूबेदार डांगे राजेन्द्र कुमार दत्तात्रय (जेसी-267874के), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार जय चन्द राम स्वामी (जेसी-267713एफ), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार काटीयार (जेसी-267826के), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार पद्मानाभन सी वी (जेसी-267639एल), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-267456पी), 08 अगस्त 2008/01 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-267063वाई), 02 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*

नायब सूबेदार विजयपाल सिंह (जेसी-267808एफ), 02 जून 2008/01 जून 2008*

नायब सूबेदार वेद पाल (जेसी-268811एन), 02 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008*

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-267299एन), 30 मई 2008/01 जनवरी 2008*

नायब सूबेदार चिन्ना राजी के (जेसी-267627डब्ल्यू), 11 जुलाई 2008/20 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-268267एक्स), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-268913के), 02 जून 2008/01 जून 2008*

नायब सूबेदार रवीन्द्र वी के (जेसी-269237एम), 07 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008*

नायब सूबेदार अजीत राम (जेसी-268822ए), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार जनक राज (जेसी-268754एक्स), 23 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008*

नायब सूबेदार महेश चन्द्र (जेसी-268329एम), 15 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008*

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-268856एन), 23 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008*

नायब सूबेदार दया शंकर दुबे (जेसी-267229पी), 13 अगस्त 2008/31 मई 2008*

नायब सूबेदार सत्यापाल सिंह (जेसी-267631वाई), 29 अगस्त 2008/01 जून 2008*

नायब सूबेदार रूप चन्द यादव (जेसी-266964वाई), 02 जून 2008/01 फरवरी 2008*

नायब सूबेदार देवा कान्ता पुकान (जेसी-268622के), 12 मई 2008/01 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार अरुण चन्द्र दास (जेसी-268018वाई), 06 मई 2008/01 फरवरी 2008*

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-268604एफ), 14 जून 2008/01 जून 2008*

नायब सूबेदार अनंत राम (जेसी-267567एम), 12 अगस्त 2008/
01 अप्रैल 2008 *

नायब सूबेदार सञ्जन सिंह (जेसी-266423एक्स), 14 दिसम्बर
2007/01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार सत्यापाल (जेसी-266851डब्ल्यू), 21 मई 2008/
01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार ए महादेवन (जेसी-268857डब्ल्यू), 30 जून 2008/
01 जून 2008 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-270343एक्स), 28 सितम्बर
2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-266421एम), 22 नवम्बर
2007/01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार महेर सिंह (जेसी-266789पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार जय प्रकाश मण्डल (जेसी-267124एल), 18 अगस्त
2008/01 अप्रैल 2008 *

नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-266559एफ), 03 अप्रैल 2008/
01 मार्च 2008 *

नायब सूबेदार चीमन सिंह (जेसी-268261डब्ल्यू), 21 मई 2008/
01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार पलानी स्वामी टी (जेसी-268470एन), 18 मार्च
2008/01 मार्च 2008 *

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-268351एक्स), 09 जुलाई
2008/01 जुलाई 2008 *

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-270347एन), 07 अक्टूबर
2008/31 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार ताज बहादुर सिंह (जेसी-268616डब्ल्यू), 08 जून
2008/01 जून 2008 *

नायब सूबेदार उगमा राम सुतार (जेसी-268375एफ), 13 जून
2008/01 जून 2008 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-267108एन), 05 फरवरी 2008/
01 फरवरी 2008 *

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-268000एच), 04 जुलाई 2008/
01 जुलाई 2008 *

नायब सूबेदार मनी कन्दन पी आर (जेसी-267786एन), 03 अप्रैल
2008/03 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार बोध राज (जेसी-267515डब्ल्यू), 30 मार्च 2008/
01 फरवरी 2008 *

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-266767डब्ल्यू), 16 अप्रैल
2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार ए करुप्पा सामी (जेसी-268055एम), 02 अप्रैल
2008/01 अप्रैल 2008 *

नायब सूबेदार राम किशोर सिंह (जेसी-266757एम), 19 अप्रैल
2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार पुरषोत्तम लाल (जेसी-268396एक्स), 01 दिसम्बर
2007

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-267620एम), 22 अगस्त
2008/07 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार कृष्ण देव चांडेल (जेसी-269511वाई), 09 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार राजू के वी (जेसी-267939एम), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार प्रथीप कुमार पी (जेसी-268679वाई), 01 अगस्त
2008

नायब सूबेदार प्रताप चन्द्र (जेसी-268860डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008/

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-267599पी), 08 अगस्त 2008/
01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार राम शरण सिंह (जेसी-267493एच), 30 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार रमेशन ओडन (जेसी-269269पी), 22 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार रणजीत नीयोग (जेसी-269227एच), 22 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद (जेसी-269552एच), 23 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008 *

[*ज्येष्ठता प्राप्त]

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम सुरेश चन्द्र (सं. 14486113एन अब जेसी-272155पी),
14 जून 2008/28 मई 2008 *

हवलदार भगवान सिंह यादव (सं. 14493993एक्स अब
जेसी-272156एक्स), 11 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

हवलदार पृथ्वीनाथ सिंह (सं. 14492094के अब जेसी-272157ए),
24 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

हवलदार गार्शिघ पाण्डेय (सं. 15118493डब्ल्यू अब जेसी-
272158एच), 11 अगस्त 2008/29 जून 2008 *

हवलदार भोले गोपाल पुन्डलिक (सं. 14374605एल अब जेसी-
272159एल), 07 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार नरसिमहलू नरुल्ला (सं. 15124745एन अब जेसी-
272160ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार धर्म पाल (सं. 15112563एन अब जेसी-272161एच),
04 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार सुधान कुमार तारफदार (सं. 14395844एन अब जेसी-272162एल), 04 अगस्त 2008/10 जुलाई 2008 *

हवलदार हेम सिंह (सं. 14391968एल अब जेसी-272163एन), 18 अगस्त 2008/11 जुलाई 2008 *

हवलदार महेताब सिंह (सं. 14493669ए अब जेसी-272164डब्ल्यू), 08 अगस्त 2008/12 जुलाई 2008 *

हवलदार सतविन्दर सिंह (सं. 14410305एक्स अब जेसी-272165वाई), 09 अगस्त 2008/21 जुलाई 2008 *

हवलदार मनोहर लाल (सं. 14485543एल अब जेसी-272166एफ), 06 अगस्त 2008/25 जुलाई 2008 *

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 14400094एम अब जेसी-272167के), 02 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार मंगत राम (सं. 14497990एफ अब जेसी-272168एम), 14 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार भारत हाण्डीक (सं. 14410712ए अब जेसी-272169पी), 30 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 15100082पी अब जेसी-272170के), 05 अगस्त 2008/02 अगस्त 2008 *

[*ज्येष्ठता प्राप्त]

हवलदार अमर पाल (सं. 14401253एल अब जेसी-272051एम), 11 जुलाई 2008/01 फरवरी 2008 *

हवलदार जयराम राम (सं. 15103775एक्स अब जेसी-272052डब्ल्यू), 30 मई 2008/17 अप्रैल 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र (सं. 14374108एफ अब जेसी-272053वाई), 09 जून 2008/03 मई 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी (सं. 14385667डब्ल्यू अब जेसी-272054एफ), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार वासुष्ठा राय (सं. 14387861वाई अब जेसी-272055के), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार प्रभु नाथ सिंह (सं. 14489508ए अब जेसी-272056एम), 01 जून 2008

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 14379557ए अब जेसी-272057पी), 01 जून 2008

हवलदार ब्रिजेश सिंह (सं. 15101330एम अब जेसी-272058एक्स), 02 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

हवलदार अरुण कुमार (सं. 14379243वाई अब जेसी-272059ए), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार प्रल्हाद वाढणे (सं. 14494459एम अब जेसी-272060पी), 08 जुलाई 2008/05 जून 2008 *

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं. 15112052के अब जेसी-272061एक्स), 04 जुलाई 2008/10 जून 2008 *

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 15103118एन अब जेसी-272062ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार श्री भगवान (सं. 14488806के अब जेसी-272063एच), 20 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 14398303एक्स अब जेसी-272064एम), 02 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार टी पाप्पीयन (सं. 14379676डब्ल्यू अब जेसी-272065एन), 02 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार शिव चरण (सं. 14479721एम अब जेसी-272066डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

हवलदार चव्हाण राजाराम तुलसीराम (सं. 14398625एक्स अब जेसी-272076ए), 11 फरवरी 2008/18 नवम्बर 2007 *

हवलदार गवली महादेव रघुनाथ (सं. 14497307डब्ल्यू अब जेसी-272077एच), 11 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार जीवन्द्र सिंह (सं. 14490018वाई अब जेसी-272078एल), 01 जनवरी 2008

हवलदार सतीश कुमार (सं. 14408290एफ अब जेसी-272079एन), 29 मई 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार संजीव कुमार (सं. 14396126के अब जेसी-272080एच), 23 जून 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार कृष्णनाम्पा श्रीरागनवी (सं. 15112233पी अब जेसी-272081एल), 16 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *

हवलदार प्रदीप कुमार चौहान (सं. 14388735वाई अब जेसी-272082एन), 20 जून 2008/11 मई 2008 *

बीएचएम दलिप कुमार (सं. 14491749वाई अब जेसी-272083डब्ल्यू), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार धर्मपाल सिंह (सं. 14372620एफ अब जेसी-272084वाई), 02 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार एम सोमा सुन्दरम (सं. 14371470के अब जेसी-272085एफ), 10 जून 2008/01 जून 2008 *

हवलदार हवा सिंह (सं. 14374599एच अब जेसी-272086के), 07 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

हवलदार सुरीन्द्र सिंह (सं. 14386388एम अब जेसी-272087एम), 05 जुलाई 2008/24 जून 2008 *

हवलदार धर्मेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 14386704ए अब जेसी-272088पी), 24 जून 2008

हवलदार जी सेनुमुनी राजालु (सं. 14389814ए अब जेसी-272089एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार परमानन्द (सं. 15121050ए अब जेसी-272090एम),
01 जुलाई 2008

हवलदार रामा मूर्ती एल (सं. 15109738ए अब जेसी-272091पी),
01 अगस्त 2008

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 15102531एक्स अब जेसी-
272092एक्स), 11 मई 2008/01 फरवरी 2008*

हवलदार सीता राम (सं. 14499552एक्स अब जेसी-272093ए),
02 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008*

हवलदार दालन यादव (सं. 14487515एक्स अब जेसी-272094एच),
25 मई 2008/26 अप्रैल 2008*

हवलदार धर्माकुला योसेफु (सं. 15119582एफ अब जेसी-
272095एल), 20 जून 2008/23 मई 2008*

हवलदार जगपाल सिंह (सं. 14402504डब्ल्यू अब जेसी-
272096एन), 25 जुलाई 2008/01 जून 2008*

हवलदार आर साकथीवेल (सं. 8034784डब्ल्यू अब जेसी-
272097डब्ल्यू), 24 जून 2008/01 जून 2008*

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 15118884पी अब जेसी-272098वाई),
14 जून 2008/01 जून 2008*

हवलदार ए लॉर्डनाथन (सं. 14487996पी अब जेसी-272099एफ),
14 जुलाई 2008/05 जून 2008*

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 14486830एफ अब जेसी-272100एल),
13 जुलाई 2008/24 जून 2008*

हवलदार आर रवी (सं. 14496353वाई अब जेसी-272101एन),
07 जुलाई 2008/25 जून 2008*

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 15114632एक्स अब जेसी-
272102डब्ल्यू), 10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008*

हवलदार दिदार सिंह (सं. 14489632एफ अब जेसी-272103वाई),
01 जुलाई 2008

हवलदार बलवान सिंह (सं. 15111917वाई अब जेसी-272104एफ),
17 जुलाई 2008/10 जुलाई 2008*

हवलदार सत्यवान (सं. 14381252वाई अब जेसी-272105के),
01 अगस्त 2008

हवलदार यधुवीर सिंह (सं. 15102226एल अब जेसी-272106एम),
04 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार प्रसन्ना कुमार बारीक (सं. 14497287एन अब जेसी-
272107पी), 01 अगस्त 2008

[*न्येष्ठता प्राप्त]

हवलदार चिन्हादा सिमहान्सचालम (सं. 14495674के अब जेसी-
272009पी), 01 जुलाई 2008/06 अगस्त 2007*

हवलदार रशपाल सिंह (सं. 14399830एल अब जेसी- 272010के),
14 फरवरी 2008/26 नवम्बर 2007*

हवलदार परशुराम कुमार सिंह (सं. 14492194पी अब जेसी-
272011एम), 19 मई 2008/01 जनवरी 2008*

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14397584एम अब जेसी- 272012पी),
18 जून 2008/01 फरवरी 2008*

हवलदार विश्वनाथ सिंह (सं. 14492409एच अब जेसी-
272013एक्स), 29 फरवरी 2008/25 फरवरी 2008*

आरएचएम राजेन्द्र सिंह (सं. 14484803वाई अब जेसी- 272014ए),
13 मई 2008/31 मार्च 2008*

हवलदार मुकुन्द सिंह (सं. 14497040एम अब जेसी- 272015एच),
01 अप्रैल 2008

बीएचएम चन्द्र शेखर अरभनवी (सं. 14491331डब्ल्यू अब जेसी-
272016एल), 19 मई 2008/01 अप्रैल 2008*

हवलदार राजबौर (सं. 14484878डब्ल्यू अब जेसी- 272017एन),
18 जून 2008/01 अप्रैल 2008*

हवलदार ब्रजेन्द्र सिंह (सं. 15102752के अब जेसी- 272018डब्ल्यू),
19 मई 2008/01 अप्रैल 2007*

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद (सं. 15114472एच अब जेसी- 272019वाई),
23 मई 2008/01 मई 2008*

हवलदार माली राजा राम भीमराव (सं. 15119398डब्ल्यू अब जेसी-
272020एन), 17 मई 2008/01 मई 2008*

हवलदार शंकर के (सं. 14388447एम अब जेसी- 272021डब्ल्यू),
18 जून 2008/01 जून 2008*

हवलदार सकात्तर सिंह (सं. 14383849ए अब जेसी- 272022वाई),
03 जून 2008/06 जून 2008*

हवलदार नारायण सिंह राठोड (सं. 14397884एन अब जेसी-
272023एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार मार्गबन्धु डी (सं. 14376005एफ अब जेसी- 272024के),
02 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार नाराके संदीप विठ्ठल (सं. 15119409एक्स अब जेसी-
272035डब्ल्यू), 19 जुलाई 2008/01 दिसम्बर 2007*

हवलदार जय प्रकाश गुप्ता (सं. 14489005पी अब जेसी-
272036वाई), 08 मई 2008/01 जनवरी 2008*

बीएचएम सैयद अर्शद महाडी बुकरी (सं. 15111989एच अब जेसी-
272037एफ), 29 जून 2008/01 फरवरी 2008*

हवलदार नायक प्रमोद वामन (सं. 15102939डब्ल्यू अब जेसी-
272038के), 09 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008*

हवलदार सूबेदार सिंह यादव (सं. 14495767वाई अब जेसी-
272039एम), 25 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008*

बीएचएम फकिराप्पा बाडीगर (सं. 14395377पी अब जेसी- 272040एफ), 03 जून 2008/11 अप्रैल 2008 *

हवलदार रणबीर (सं. 14398674ए अब जेसी- 272041के), 03 जुलाई 2008/17 मई 2008 *

हवलदार ब्रह्म देव (सं. 15106919ए अब जेसी- 272042एम), 03 जून 2008/01 जून 2008 *

आरएचएम ओम प्रकाश खटीक (सं. 14380644ए अब जेसी- 272043पी), 05 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार रवीन्द्र पिल्ले एम एन (सं. 15105292वाई अब जेसी- 272044एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार अमबोरसे के (सं. 14392236एफ अब जेसी- 272045ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार रोहदास सिंह (सं. 14390601वाई अब जेसी- 272046एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार राज बहादुर सिंह (सं. 14480918पी अब जेसी- 272047एल), 01 जुलाई 2008

हवलदार जागीर सिंह (सं. 14492785डब्ल्यू अब जेसी- 272048एन), 03 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार भूपेन्द्र कुमार यादव (सं. 15111471पी अब जेसी- 272049डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

हवलदार बाबू लाल भाडू (सं. 14386591एच अब जेसी- 272050एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार पुरन सिंह (सं. 14498442डब्ल्यू अब जेसी- 272108एक्स), 14 मई 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार विजय सिंह (सं. 14373829वाई अब जेसी- 272109ए), 14 अप्रैल 2008/22 जनवरी 2008 *

हवलदार जी शंकर (सं. 14407285के अब जेसी- 272110पी), 17 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार दया नन्द कुमार शर्मा (सं. 14374505ए अब जेसी- 272111एक्स), 28 जुलाई 2008/20 अप्रैल 2008 *

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14401333एच अब जेसी- 272112ए), 11 अगस्त 2008/08 मई 2008 *

हवलदार जमान सिंह (सं. 14391540वाई अब जेसी- 272113एच), 26 जून 2008/28 मई 2008 *

हवलदार लाल अजीत कुमार सिंह (सं. 15115939पी अब जेसी- 272114एल), 04 अगस्त 2008/01 जून 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 15103088एफ अब जेसी- 272115एन), 16 जुलाई 2008/29 जून 2008 *

हवलदार लाल्लन सिंह (सं. 14389014एफ अब जेसी- 272116डब्ल्यू), 08 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार बसाय्या पुजार (सं. 14370153डब्ल्यू अब जेसी- 272117वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार मदन लाल (सं. 14490047एन अब जेसी- 272118एफ), 09 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार डी वेकन्ट (सं. 14389516के अब जेसी- 272119के), 22 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार अलोक देव (सं. 14403757एक्स अब जेसी- 272120वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार सतेन्द्र प्रसाद (सं. 14498471एल अब जेसी- 272121एफ), 05 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

बीएचएम रणजीत कुमार वर्मा (सं. 14406072के अब जेसी- 272122के), 01 अगस्त 2008

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पी रामा शास्त्री
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 615, दिनांक 3 दिसम्बर 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार जसवन्त सिंह राठौर (सं. 1265579वाई अब जेसी- 842293वाई), 29 मार्च 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008)

हवलदार सत्या प्रसाद (सं. 10404014एच अब जेसी-842303एक्स), 15 मार्च 2008 **

हवलदार शाहबादी मोहम्मद अरुल्लाऊदीन (सं. 14343019एफ अब जेसी-842304ए), 29 मई 2008 **

हवलदार गुरदियाल सिंह (सं. 4451427वाई अब जेसी-842305एच), 14 मार्च 2008 **

हवलदार अजेन्द्रा प्रसाद (सं. 14317660एच अब जेसी- 842308डब्ल्यू), 15 अप्रैल 2008 **

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008)

हवलदार जोसेफ मैथ्यू (सं. 10289475एक्स अब जेसी-842312वाई), 01 अप्रैल 2008 ***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008)

हवलदार फकीर फरीद हुशेनशाह (सं. 10149531एन अब जेसी-842320एक्स), 01 मई 2008*****

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 1050834वाई अब जेसी-842321ए), 01 मई 2008*****

हवलदार मोहिन्द्र सिंह (सं. 10479019एच अब जेसी-842322एच), 01 मई 2008*****

हवलदार मांगे राम (सं. 10479041एन अब जेसी-842323एल), 01 मई 2008*****

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 10479271एफ अब जेसी-842324एन), 01 मई 2008*****

हवलदार प्यारे लाल (सं. 10479285एफ अब जेसी-842325डब्ल्यू), 01 मई 2008*****

हवलदार बंद भागवत (सं. 10227236ए अब जेसी-842326वाई), 01 मई 2008*****

हवलदार अमर सिंह (सं. 1260316डब्ल्यू अब जेसी-842327एफ), 01 मई 2008*****

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 10301959एम अब जेसी-842328के), 01 मई 2008*****

हवलदार भवानी दत्त भट्ट (सं. 5841442के अब जेसी-842329एम), 05 मई 2008*****

हवलदार शादक शरैया (सं. 10358502के अब जेसी-842330एफ), 05 मई 2008*****

हवलदार करम सिंह (सं. 3970146के अब जेसी-842331के), 01 मई 2008*****

हवलदार बालचरण सिंह (सं. 14309466वाई अब जेसी-842332एम), 01 मई 2008*****

हवलदार कुलदीप पुरी (सं. 10196667एच अब जेसी-842333पी), 13 मई 2008*****

हवलदार लांके उधव महातर्जी (सं. 10436079के अब जेसी-842334एक्स), 01 मई 2008*****

हवलदार करम चन्द (सं. 2464211के अब जेसी-842336एच), 05 मई 2008*****

हवलदार वरदाने लक्ष्मण महादु (सं. 10119096पी अब जेसी-842337एल), 01 मई 2008*****

****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 10313540एन अब जेसी-842338एन), 09 मई 2008*****

*****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2008)

हवलदार रोशन लाल (सं. 10301774एल अब जेसी-842342डब्ल्यू), 02 जून 2008*****

हवलदार दिवाकरन पी (सं. 10358267डब्ल्यू अब जेसी-842344एफ), 01 जून 2008*****

हवलदार राम निवास (सं. 10313724एम अब जेसी-842346एम), 02 जून 2008*****

हवलदार प्रयाग दत्त (सं. 4166545एल अब जेसी-842349ए), 02 जून 2008*****

हवलदार तरसेम दास (सं. 3975626एक्स अब जेसी-842351एक्स), 02 जून 2008*****

हवलदार हरि कृष्ण (सं. 13737067एच अब जेसी-842352ए), 02 जून 2008*****

*****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) द्रोणाचार्य जोशी (सं. 10404736पी अब जेसी-842311डब्ल्यू), 17 मई 2008*****

*****(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008)

हवलदार (लिपिक) अवधेश प्रसाद (सं. 14213082एम अब जेसी-842339डब्ल्यू), 16 जून 2008*****

हवलदार (लिपिक) नन्द किशोर (सं. 6380152डब्ल्यू अब जेसी-842341एन), 09 जून 2008*****

*****(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008)

हवलदार (लिपिक) सुरेश एम (सं. 2985641के अब जेसी-842359के), 01 जुलाई 2008*****

हवलदार (लिपिक) नागरकर सुर्यकांत विठ्ठल (सं. 10146384एल अब जेसी-842360वाई), 01 जुलाई 2008*****

हवलदार (लिपिक) जगदीश चन्द्रा (सं. 14336500एक्स अब जेसी-842361एफ), 01 जुलाई 2008*****

*****(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008)

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 616, दिनांक 3 दिसम्बर 2008—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

- आई सी-59633 मेजर विक्रम मोहन, आर्मड, 23 अप्रैल 2008 (अपराहन)
 आई सी-44916 ले. कर्नल आर डी एस चौहान, ईएमई, 08 जनवरी 2008 (अपराहन)
 आई सी-47993 ले. कर्नल एस एस आर कामत, ईएमई, 08 जनवरी 2008 (अपराहन)
 आई सी-45768 मेजर ए के कोहली, ईएमई, 17 अप्रैल 2008 (अपराहन)
 आई सी-44030 ले. कर्नल सरवटे आशुतोष एस, ईएमई, 15 अप्रैल 2008 (पूर्वाहन)
 आई सी-47486 ले. कर्नल पूनाचा एम एम, ईएम, 19 फरवरी 2008 (अपराहन)
 आई सी-44331 ले. कर्नल प्रसून सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2007 (अपराहन)
 आई सी-51883 ले. कर्नल आनन्द कुमार, इंजीनियर्स, 07 जनवरी 2008

आई सी-43800 ले. कर्नल रवि सिंह, इंजीनियर्स 06 जनवरी 2008 (अपराहन)

आई सी-44406 ले. कर्नल एसएन शेखर, ईन्ट, 21 अगस्त 2007 (अपराहन)

आई सी-44374 ले. कर्नल रनवीर सिंह, ईन्ट, 06 मई 2007 (अपराहन)

आई सी-44955 ले. कर्नल एस वेनूगोपालन, इंजीनियर्स, 22 अक्टूबर 2007 (अपराहन)

आई सी-45189 ले. कर्नल एन सी एस ग्रेवाल, आर्मड, 31 मई 2007 (अपराहन)

आई सी-47008 ले. कर्नल मनदीप सिंह विज, आर्मड, 30 जून 2008 (अपराहन)

आई सी-44846 ले. कर्नल संजय भारद्वाज, आर्मड, 29 फरवरी 2008 (अपराहन)

आई सी-42268 ले. कर्नल रवनीश सिंह आहूजा, आर्मड, 09 अगस्त 2007 (अपराहन)

आई सी-44338 ले. कर्नल रोमोदीप आनन्द, आर्मड, 20 जून 2007 (अपराहन)

एस के चक्रवर्ती
 संयुक्त निदेशक
 एम एस/पी आर

MINISTRY OF DEFENCE

DEPARTMENT OF DEFENCE

New Delhi, the 20th December 2008

No. 608, dated 28th November 2008.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated the 24th March, 2008 and in terms of Sections 5(2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005 the following officer of the Department of Defence (Sectt.), Ministry of Defence are hereby designated as Appellate Authority in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Name of the previous Appellate Authority with Designation	Tele No.	Name of Appellate Authority with Designation/Tele No.	Subject Matter
Shri P. K. Rastogi, Special Secretary(R)	23017678	Shri R. K. Mathur, Additional Secretary(M) 23017678	Seeking information under Right to Information Act, 2005 by Shri George Fernandes, Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) through his letter dated 7.2.2008.

K. MURALI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 609, dated 28th November 2008.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts w.e.f. 9 Jun 2007

Randeep Pathania (IC-69114W) Inf seniority next below IMAD SHERIFF (IC-69113N) Arty, Kanade Arney Dilip (IC-69117K) Arty seniority next below Kulkarni Nikhil Kashinath (IC-69116F) Inf and Sudarshan Mishra (IC-69187H) AC seniority next below Chetan Sharma (IC-69186A) AOC whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 24 May 2008.

PERMANENT COMMISSION

To be Lts w.e.f. 08 Dec 2001

Ravi Navin (IC-61539A) Inf seniority next below Deepak Joshi (IC-61538X) Sigs whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 26 Oct 2002.

PERMANENT COMMISSION

To be Lts w.e.f. 10 Dec 2007

The undermentioned Genglemen Cadets of 121 Regular Course (121 DE, 111 Ex NDA and 88 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 10 Dec 2007 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE, AI 53/78 read with SAI 4/S/74 for (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC No., Name and Arm/Service

IC-69603F, Sanjay Singh Jeena, Engrs

IC-69604K, Yogesh Chauhan, AC

IC-69605M, Jaddu Vamsidhar Naidu, Sigs

IC-69606P, Vinay Prakash Singh, AC

IC-69607X, Ashish Kumar Ojha, Inf

IC-69608A, Patil Ravi Dhruva, EME

IC-69609H, Puneet Khanna, Engrs

IC-69610X, Chetan N Balulad, Arty

IC-69611A, Bhagwant Singh, AC

IC-69612H, Gautam Lamba, Arty

IC-69613L, Gyan Ranjan Sahu, AOC

IC-69614N, Pankaj Pathak, Engrs

IC-69615W, Avinash Swain, Inf

IC-69616Y, Jaswinder Singh, Inf

IC-69617F, Salunke Saurabh Rajanikant, Mech

IC-69618K, Wangyal Tashi Sherpa, AAD

IC-69619M, Gurpartap Singh, Arty

IC-69620F, Swapnil Natthuji Raut, Arty

IC-69621K, Mahipal Singh Bhati, Inf

IC-69622M, Kshitiz Arya, Inf

IC-69623P, Trivedi Snehal Arunkumar, ASC

IC-69624X, Sandeep Upreti, Arty

IC-69625A, Saurabh Thakur, Arty

IC-69626H, Pradeep Singh Adhikari, Arty

IC-69627L, Jagdhane Piyush Pralhad, AC

IC-69628N, Divesh Kumar, Inf

IC-69629W, Karan Sharma, Engrs

IC-69630L Bikiran Kumar Dash, Inf	IC-69670M, Rahul Singh, Inf
IC-69631N, Arun Kumar, EME	IC-69671P, Ritesh Kumar Singh, Arty
IC-69632W, Ghanender Pratap Singh, Inf	IC-69672X, Ajay Kumar Gill, EME
IC-69633Y, Sharad Vashista, EME	IC-69673A, Alok Badoni, Inf
IC-69634F, Siddanna B Munnolli, Inf	IC-69674H, Chetan Kaushik, Arty
IC-69635K, Praveen Kumar Singh, Inf	IC-69675L, Tapan Sangwan, Engrs
IC-69636M, Mayank Saxena, AAD	IC-69676N, Sumesh Kumar P, Inf
IC-69637P, Apurba Ranjan Singha, Arty	IC-69677W, Aravind, P J, EME
IC-69638X, Sudhir Singh Kalakoti, Inf	IC-69678Y, Vikram Sharma, Mech
IC-69639A, Rishabh Nigam, Mech	IC-69679F, Puneet Dutta, Engrs
IC-69640P, Rahul Singh, Engrs	IC-69680W, Ashish Dhankhar, Inf
IC-69641X, Abhishek Saxena, Engrs	IC-69681Y, Savit Vikram, Engrs
IC-69642A, Channabasavesh K Gunde, Inf	IC-69682F, Vijendra Singh, Inf
IC-69643H, Heera Singh, Inf	IC-69683K, Kshitij Prakash Gupta, AAD
IC-69644L, Gurmukh Singh, Inf	IC-69684M, Rishabh Tiwari, Arty
IC-69645N, Satyendra Singh, Engrs	IC-69685P, Banti Mahouria, Inf
IC-69646W, Saurabh Sharma, EME	IC-69686X, Hemant Kumar Deolal, Inf
IC-69647Y, Keerthi Balaram Javvathi, Engrs	IC-69687A, Bahram Rana, Inf
IC-69648F, Jagannath B Desai, Engrs	IC-69688H, Ganesh Singh Pokhariya, Inf
IC-69649K, Krishnachandran P, Arty	IC-69689I, Prabhat Mishra, Arty
IC-69650Y, Swaroop Singh Chauhan, Inf	IC-69690A, Dhiraj Kumar Singh, EME
IC-69651F, Tharun Edward, Arty	IC-69691H, V Vinay Bhanu Reddy, Arty
IC-69652K, Shishir Pandey, Inf	IC-69692L, Jaswinder Singh, EME
IC-69653M, Ajay Singh Bhadouria, Inf	IC-69693N, Abhishek Mishra, Arty
IC-69654P, Kalpesh Gorakh Kalal, Arty	IC-69694W, Sumant Mahajan, Arty
IC-69655X, Biswajit Mitra, AOC	IC-69695Y, Padmanabhan Swamy, Inf
IC-69656A, Swapnil Chandrashekhar Kulkarni, Inf	IC-69696F, Mukul Sharma, AAD
IC-69657H, Avnish Kumar, AC	IC-69697K, Arun Singh, Sigs
IC-69658L, Karthickraj P, ASC	IC-69698M, Madhialagan G, EME
IC-69659N, Sandeep Singh, Sigs	IC-69699P, Sambhav Sagar, Inf
IC-69660H, W Hitler Meitie, AOC	IC-69700Y, Garun Anand, Inf
IC-69661L, Jyoti Prakash Mishra, Sigs	IC-69701F, Amit Singh, AOC
IC-69662N, Nepram Somokanta Singh, Inf	IC-69702K, Ravishekhar R Kottur, Arty
IC-69663W, Swagat Kumar Das, Inf	IC-69703M, Parwat Dan, Inf
IC-69664Y, Kumar Sugandh, AOC	IC-69704P, Alex Sebastian, Arty
IC-69665F, Sujit Kumar, Arty	IC-69705X, Ranjan Kumar, Inf
IC-69666K, Sunil Dahiya, Inf	IC-69706A, S Navneeth Ganesh, Inf
IC-69667M, Gaurav Thapa, Inf	IC-69707H, Deepjyoti Saikia, Inf
IC-69668P, Arjun Gulati, Engrs	IC-69708L, Arjun Ramath, Engrs
IC-69669X, Chirag Baweja, Inf	IC-69709N, Dheeraj Parashar, Inf

IC-69710H, Vinu TM, Arty	IC-69751M, Sarvjeet Singh, Inf
IC-69711L, Navneet Jang Thapa, Inf	IC-69752P, Ranjan Kumar Singh, Inf
IC-69712N, Rahul Singh, EME	IC-69753X, Kumar Ankur, Arty
IC-69713W, Shikhar Agarwal, Mech	IC-69754A, Noel Gilbert Anthony, AOC
IC-69714Y, Yashpal, Inf	IC-69755H, Akshay Girish Kumar, Engrs
IC-69715F, Sanjeev Kumar, Engrs	IC-69756L, Sanjeev Kumar, AC
IC-69716K, Kamaljeet Singh, Inf	IC-69757N, Ashwani Kumar Pandita, Inf
IC-69717M, Saurabh Pandey, Arty	IC-69758W, Jay Shankar Sharma, Arty
IC-69718P, Kumud Kumar Yadav, EME	IC-69759Y, Puran Singh Salaria, EME
IC-69719X, Neeraj Sharma, Sigs	IC-69760N, Pulkit Agarwal, Inf
IC-69720M, Mohit Hooda, AOC	IC-69761W, Vikee Lamoria, Inf
IC-69721P, Ashwani Singh, AOC	IC-69762Y, Vikram Singh Gautam, Arty
IC-69722X, S Durga Prasad Dora, Engrs	IC-69763F, Susanta Kumar Jena, Inf
IC-69723A, Shree Prasad Thapa, Arty	IC-69764K, Dinesh Kumar, AOC
IC-69725L, Apoorv Goel, Int	IC-69765M, Vishal Deswal, Inf
IC-69726N, Alok Shankar, Engrs	IC-69766P, Tapas Kr Deka, AAD
IC-69727W, Ujjawal Patial, AC	IC-69767X, Neelakandan B, Engrs
IC-69728Y, Gopal Mishra, AOC	IC-69768A, Smit Mamgain, Engrs
IC-69729F, Parit Pratap Singh, Mech	IC-69769H, Rahul Singh, EME
IC-69730W, Himanshu Gupta, AAD	IC-69770X, Tarush Rana, Mech
IC-69731Y, Kapil Tripathi, Inf	IC-69771A, Shashank Lavania, Arty
IC-69732F, N Thandavan, Arty	IC-69772H, Anshubhan Singh, Inf
IC-69733K, G Kalicharan, Inf	IC-69773L, Shashidharan V Nair, Inf
IC-69734M, Prateek Shukla, Arty	IC-69774N, Varun Sharma, Sigs
IC-69735P, Prasoon Singh, Inf	IC-69775W, Anil Prasad, Inf
IC-69736X, Sumiran Vyas, Inf	IC-69776Y, Dinesh Fogat, Arty
IC-69737A, Daljit Singh, Inf	IC-69777F, Praveen Chaudhary, Inf
IC-69738H, Lalit Kumar Singh, EME	IC-69778K, Sayan Bandhapadhy, Inf
IC-69739L, G Naresh Reddy, Arty	IC-69779M, Gaurav Mitra, Engrs
IC-69740A, Jayprakash Singh, Inf	IC-69780F, Vijay Chaudhary, Inf
IC-69741H, Abhinav Verma, Sigs	IC-69781K, Saurabh Joshi, AAD
IC-69742L, Maneesh, Arty	IC-69782M, Mohit Tiwari, ASC
IC-69743N, Dalip Gurung, AOC	IC-69783P, Vikas Kumar, Inf
IC-69744W, Sandeep R H, Arty	IC-69784X, Arbind Kumar, Inf
IC-69745Y, Anil Kumar Samal, Inf	IC-69785A, Anil Kumar S Nair, Arty
IC-69746F, Deepak Uniyal, Arty	IC-69786H, Ezhirtko M, Arty
IC-69747K, Hardeep Singh, Arty	IC-69787L, Bharat Pal Yadav, AOC
IC-69748M, Varunesh Rao, AAD	IC-69788N, Kalpataru Das, Inf
IC-69749P, Avijit Chaudhary, Engrs	IC-69789W, Nirml Sahi, Arty
IC-69750K, Sanjeev Kumar Rattan, Inf	IC-69790L, Abhishek Kumar, Inf

IC-69791N, Samrat Gaikwad, EME	IC-69831K, Amarjit Singh Elangbam, Mech
IC-69792W, Piyush Tilara, Sigs	IC-69832M, Bijayananda Das, AC
IC-69793Y, Kedar Markale, AC	IC-69833P, Abhinandan Dubey, Arty
IC-69794F, Maneesh Kumar, Mech	IC-69834X, Amit, Inf
IC-69795K, Kaustubh Pandurang Jadhav, Inf	IC-69835A, Kishan Dodwaria, EME
IC-69796M, Amit Rohatgi, Inf	IC-69836H, Arun Kumar, Inf
IC-69797P, Praveen Koshy, Engrs	IC-69837L, Kripakar M, Irif
IC-69798X, Kuldeep Bhadu, Inf	IC-69838N, Umesh Babu Thapa, Inf
IC-69799A, Borkar Daulat Sampatrao, Engrs	IC-69839W, Varun Mishra, Mech
IC-69800K, Santosh Chowdhury, Inf	IC-69840L, Vijit Kumar, Inf
IC-69801M, Anil Ishwara Karwal, Engrs	IC-69841N, Shaharyar Haider, Inf
IC-69802P, Saphal Pradhan, Arty	IC-69842W, Saurabh Mall, Inf
IC-69803X, C Vinay, Engrs	IC-69843Y, Chandra Kant Sharma, Inf
IC-69804A, Ashwarya Joshi, Inf	IC-69844F, Vishal Sharma, EME
IC-69805H, Abhishek Sharan Pathak, ASC	IC-69845K, Rasay Nitin Ravikant, Arty
IC-69806L, Ashish Tiwari, Arty	✓ IC-69846M, Dharendra Kumar Yadav, AOC
IC-69807N, Lenil Johnson, Arty	IC-69847P, Sourabh Singh Mayank, Engrs
IC-69808W, Sandeep Mishra, Inf	IC-69848X, Goswami Dibyajyoti Dilipkumar, Sigs
IC-69809Y, Bhaskar Dutta, Arty	IC-69849A, Amit Chaubey, Engrs
IC-69810N, Subash R, Inf	IC-69850P, Umesh Bhatt, Inf
IC-69811W, P Balu Phanikar, Engrs	IC-69835IX, Heerender Sumra, Engrs
IC-69812Y, Praveen Singh Ranawat, AOC	IC-69852A, Gautam Biswas, Int
IC-69813F, Sunil Singh, Inf	IC-69853H, Uday Mohan Aga, Sigs
IC-69814K, Himanshu Dhyani, AOC	IC-69854L, Pritam Biswas, Engrs
IC-69815M, Ritesh Pratap Singh, Sigs	IC-69855N, Prasoon Dwivedi, Inf
IC-69816P, Yogender Singh, Inf	IC-69856W, Nitin Gautam, Inf
IC-69817X, Aditya Singh, Sigs	IC-69857Y, Tanmay Iyer, Engrs
IC-69818A, Abheek Purai, Inf	IC-69858F, Shabestian Marbaniang, ASC
IC-69819H, Anshul Jain, EME	IC-69859K, Vikram Singh, ASC
IC-69820X, N Praveen Kumar, Inf	IC-69860Y, Mishra Ashish Surendrakumar, AAD
IC-69821A, Amar Kumar, Arty	IC-69861F, Sandeep Chauhan, Inf
IC-69822H, Deependra G Agnihotri, AAD	IC-69862K, Suneel Bartwal, Inf
IC-69823L, Shashank Thite, Engrs	IC-69863M, Bedh Arvind Lalchand, Inf
IC-69824N, Ankit Yadav, Inf	IC-69864P, Tarun Negi, EME
IC-69825W, Shafiq Ahmed Khan, Inf	IC-69865X, Shreedhar, Arty
IC-69826Y, Bhaskaranand Mamgain, Inf	IC-69866A, Ajay Singh Dogra, AOC
IC-69827F, P Vishweswar Rao, EME	IC-69867H, Sanjeev Yadav, Sigs
IC-69828K, Vinod Ghadge, Arty	IC-69868L, Jagmohan Singh Rawat, Inf
IC-69829M, Ankolekar Durgeshnand Sharad, Inf	IC-69869N, Devesh Kumar Rai, Arty
// IC-69830F, Palde Somnath Punja, Arty	IC-69870H, Thite Prasad Anil, Inf

IC-69871L, Pratap Singh, AAD	IC-69911F, Sibabrata Mohanty, Inf
IC-69872N, Vivek Bodla, Inf	IC-69912K, Deepak Kumar, Inf
IC-69873W, Amit Kumar Awasthi, Engrs	IC-69913M, Mayur Aloria, Arty
IC-69874Y, Dhekane Harshavardhan Shahaji, Inf	IC-69914P, Vikram Singh, Inf
IC-69875F, Mohit Berry, Arty	IC-69915X, Vaibhav Srivastava, Engrs
IC-69876K, Pumlal L Ngaihte, Mech	IC-69916A, Hira Singh, AOC
IC-69877M, Prshant Jamwal, AC	IC-69917H, Pardeep Dhillon, AC
IC-69878P, Sandeep Singh Pathania, Inf	IC-69918L, Vishal Parik, Inf
IC-69879X, Nikesh Kaushik, Engrs	IC-69919N, Ranadceep Halder, EME
IC-69880M, Varun Gajria, Arty	IC-69920H, Sandeep Thapliyal, Arty
IC-69881P, Vishal Gurung, Inf	IC-69921L, Lal Anantha, Inf
IC-69882X, Deb Prasad Choudhury, Arty	IC-69922N, Kapil Dev, Engrs
IC-69883A, Hemant Mishra, EME	IC-69923W, Vikrant Sharma, Inf
IC-69884H, Manish Singh, EME	IC-69924Y, Rahul Rawat, Inf
IC-69885L, Parag Gumber, Inf	IC-69925F, Mayank Bisht, AOC
IC-69886N, Mohd Ashraf Mir, Inf	IC-69926K, Ravi Kant Pandey, Sigs
IC-69887W, Vipin, Inf	IC-69927M, Menon Akash Jayarajan, Arty
IC-69888Y, Harendra Bisht, Inf	IC-69928P, Raghavendra C, Inf
IC-69889F, Podipireddy Sravan Siddhartha, Inf	IC-69929X, Shantnoo Jharkhandi, AC
IC-69890W, Raj Saurabh, AAD	IC-69930M, Satbir Singh, Arty
IC-69891Y, Rajesh Singh, Inf	IC-69931P, Stalin Arockia Rex, Inf
IC-69892F, Sandeep Kumar, Mech	IC-69932X, Himmat Singh Bangari, AOC
IC-69893K, Vishnu Gopan, AOC	IC-69933A, Abhitaj Sharma, Arty
IC-69894M, Naresh Sharma, Arty	IC-69934H, Deepak Chaudhry, Mech
IC-69895P, Apoorva Kumar, Inf	IC-69935L, Eashwar R Venkatesh, Engrs
IC-69896X, Kamlesh Kumar Srivastva, Inf	IC-69936N, Jaspreet Singh, Arty
IC-69897A, Akshat Chhibbar, Inf	IC-69937W, Nidhesh Singh, Arty
IC-69898H, Girish Chandra Joshi, Arty	IC-69938Y, Surve Girish Yeshvant, Arty
IC-69899L, Manoj Rawat, Engrs	IC-69939F, Sidharth Shrivastava, Inf
IC-69900P, Manmeet Singh, EME	IC-69940W, Vijay Kumar, AAD
IC-69901X, Pradeep Kumar Singh, EME	IC-69941Y, Amit Kumar Mishra, Engrs
IC-69902A, M Karthikeyan, Inf	IC-69942F, Ablakasha Datta, Inf
IC-69903H, Deepak Kumar Tiwari, Inf	IC-69943K, Manish Kumar Sharma, Inf
IC-69904L, Jagadish K S, Inf	IC-69944M, R Shiva Rama Krishnan, Inf
IC-69905N, Thapa Balbahadur Bhimbahadur, Inf	IC-69945P, Kalyan Mohan Patnaik EME
IC-69906W, Shoryaveer Sinh Rathaur, Inf	IC-69946X, Bhagwat Nilesh Maruti, Inf
IC-69907Y, Kirtiman Karki Chhetri, Inf	IC-69947A, Kautuk Shrivastav, Arty
IC-69908F, Santosh A K, AC	IC-69948H, Prashant Dutt, AOC
IC-69909K, Shubham Pandey, AAD	IC-69949L, Prince P Kurian, Inf
IC-69910Y, Bhaskar Pandey, Inf	IC-69950A, Arvind Avinash, Arty

IC-69951H, Prateek Saxena, EME	IC-69991K, Deependra Singh Kushwah, Arty
IC-69952L, Akshay Kumar, Arty	IC-69992M, Tushar Bachlaus, Arty
IC-69953N, Anshul Rawat, Engrs	IC-69993P, Saurabh Gupta, EME
IC-69954W, Atul Kumar Srivastava, Arty	IC-69994X, Gaurav Ranjan, Sigs
IC-69955Y, Vimal Kumar, AOC	IC-69995A, Uday Bhanot, Inf
IC-69956F, Saurabh Rajput, Inf	IC-69996H, Gaurav Singh Thakur, AAD
IC-69957K, Ranjan Banerjee, Inf	IC-69997L, Shubhendu Shekhar, AOC
IC-69958M, Armit Kumar Roshan, Inf	IC-69998N, Abhimanyu Pathania, Engrs
IC-69959P, Krishna Chandra Gouda, Arty	IC-69999W, Ajay Kumar, Inf
IC-69960K, Jagannath Ballav Kausik Mohanty, AAD	IC-70000X, Ramteke Lalit Devendra, Arty
IC-69961M, Ashwini Kumar Pradhan, EME	IC-70001A, Bishal Singh, Inf
IC-69962P, Jitender Yadav, Arty	IC-70002H, Ambar Chadha, Inf
IC-69963X, Ranjeet Singh Bisht, Mech	IC-70003L, Iyer Rishikanth Ravindran, Arty
IC-69964A, Sunil Pundir, Arty	IC-70004N, Anurag Anand, Engrs
IC-69965H, Vineet Sharma, ASC	IC-70005W, Manmohan Mishra, Arty
IC-69966L, Jitender Singh Sangwan, AC	IC-70006Y, Amit Kumar Dimri, Inf
IC-69967N, Manoj Kumar Pandey, Inf	IC-70007F, Pratap Singh Rathore, Inf
IC-69968W, Saurabh Rana, Sigs	IC-70008K, Ashutosh Singh, Arty
IC-69969Y, Love Kumar Chhetri, EME	IC-70009M, Anoop Das K, Engrs
IC-69970N, Ravi Chandra A, Engrs	IC-70010F, Ashish G Kumar, EME
IC-69971W, Ashutosh Gupta, Inf	IC-70011K, Ankur Gautam, Arty
IC-69972Y, Lourembam Suraj Kumar Maitei, Inf	IC-70012M, Rahul Chauhan, Inf
IC-69973F, Gajdeep Pal, Arty	IC-70013P, Manish Thapa, Inf
IC-69974K, Prakash Singh Bhandari, Inf	IC-70014X, Mahip Singh, Inf
IC-69975M, Aditya Vanka, Engrs	IC-70015A, Md. Hayat, Arty
IC-69976P, Ashish Tandon, Inf	IC-70016H, Soumik Kumar Ganguly, Inf
IC-69977X, Arvind Singh, Inf	IC-70017L, Gaurav Sharma, Engrs
IC-69978A, Milan Singh, AOC	IC-70018N, Nikhil Raj Jainvi, Engrs
IC-69979H, Mohit Kakran, Engrs	IC-70019W, Kiran Kumar Reddy K, Inf
IC-69980X, Neeraj Joshi, Inf	IC-70020L, Sanjay Frank, Arty
IC-69981A, Deepak Kumar, ASC	IC-70021N, Ashish Singh, Arty
IC-69982H, Ratikanta Parida, Inf	IC-70022W, Virender Singh Kotecha, Inf
IC-69983L, Bijendra Singh Rawat, EME	IC-70023Y, Abhimanyu Singh, AC
IC-69984N, Arun Negi, Engrs	IC-70024F, Jaivardhan Pandey, Engrs
IC-69985W, Parag Sharma, Inf	IC-70025K, Narinder Singh, Sigs
IC-69986Y, Ghan Bahadur Rana, Engrs	IC-70026M, Ashish Singh, EME
IC-69987F, Abhishek Joshi, Arty	IC-70027P, Muktesh Suri, AC
IC-69988K, Varun Prashar, Inf	IC-70028X, Sojith S, Sigs
IC-69989M, Atique Uzzaman, AOC	IC-70029A, Amit Shanker Jha, Engrs
IC-69990F, Sumit Sharma, Mech	IC-70030P, Sanjay Kumar, Mech

IC-70031X, Manoj Kumar Dhankher, AOC
 IC-70032A, Kamal Bhatt, Inf
 IC-70033H, Deepak Pandey, Sigs
 IC-70034L, Shashi Shekher, Mech
 IC-70035N, Upendra Kumar, AC
 IC-70036W, Girish Gurjal, Arty
 IC-70037Y, Sagar Rajendra Sonkamble, Inf
 IC-70038E, Arun Yadav, Arty
 IC-70039K, Patankar Kaustubh Sunil, Inf
 IC-70040Y, Vinod Singh, AC
 IC-70041F, Rohan Mahajan, Inf
 IC-70042K, Vikrant Pratap Singh, AAD
 IC-70043M, Gangesh Mani Tripathi, EME
 IC-70044P, Saurabh Gurung, Inf
 IC-70045X, Diwakar Sharma, ASC
 IC-70046A, Mayank Bansal, Arty
 IC-70047H, Gaurav Garg, Engrs
 IC-70048L, Anil Kumar Vyas, Arty
 IC-70050H, Pankaj Gairola, Inf
 IC-70051L, Satinder Singh, Inf
 IC-70052N, Justine Roshan Lakra, AOC
 IC-70053W, Vipin Singh Rana, Engrs
 IC-70054Y, Sandeep Sangwan, EME
 IC-70055E, Kapil Hooda, Arty
 IC-70056K, Kaustubh Satish Dighade, Inf
 IC-70057M, Rohit Mehla, AAD
 IC-70058P, Bhosale Dhananjay Arjun, Arty
 IC-70059X, Vaibhav Latiyan, Inf
 IC-70060M, Santosh Kumar Yadav, Arty

NILESH CHOWDHARY
 Maj
 AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 610, dated 1st December 2008.—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arm & D. O. Subs Maj Gen

IC-27955, Brig RK Yadav, 18CAV—07-05-08 with seniority from 19-05-07 without effect on pay and pension.

IC-30056, Brig TK Das, Sigs—24-12-07 with seniority from 02-06-07 without effect on pay and pension.

IC-30137, Brig SP Kochhar, Sigs—01-02-08 with seniority from 03-06-07 without effect on pay and pension.

IC-30143, Brig AK Chadha, Sigs—30-05-08 with seniority from 03-06-07 without effect on pay and pension.

V-00330, Brig JK Srivastava, RVC—09 Nov 2007.

N. K. PHUKAN
 Dir MS(X)

ARMY BRANCH

No. 611, dated 1st December 2008.—The President is pleased to make the following promotions :

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm and Subs Date

IC-39453 Venish Rai, M/Inf, 15 Mar 2006

IC-39618 Surinder Kumar, Arty, 15 Mar 2006

IC-39683 Balvinder Singh, ASC, 15 Mar 2006

IC-40206 S Kaul, M/Inf, 15 Mar 2006

IC-40298 A Anil, Inf, 15 Mar 2006

IC-40311 R Chopra, M/Inf, 15 Mar 2006

IC-40339 YK Katoch, Inf, 15 Mar 2006

IC-40375 SB Vajramathi, Engrs, 15 Mar 2006

IC-40434 MS Dhanoa, Inf, 15 Mar 2006

IC-40564 DK Bishnoi, Inf, 15 Mar 2006

IC-37954 HS Negi, Inf, 15 Mar 2006

IC-37968 M Grewal, Inf, 15 Mar 2006

IC-40719 SN Roy, Int, 18 Nov 2006 but seniority wef 15 Mar 2006 without effect on pay & pension.

IC-40735 MS Salaria, Inf, 15 Mar 2006

IC-40752 D Saini, Arty, 15 Mar 2006

IC-40763 Bhupinder Singh, Sigs, 15 Mar 2006

IC-40806 JS Hundal, AAD, 15 Mar 2006

IC-40835 R Bhatia, Inf, 15 Mar 2006

IC-40847 Rajiv Sethi, Arty, 15 Mar 2006

IC-40862 AS Rawat, Inf, 15 Mar 2006

IC-40925 A Joshi, Int, 15 Mar 2006

IC-40943 RC Chhillar, Int, 15 Mar 2006

IC-41018 R Mahna, Arty, 15 Mar 2006	IC-41102 J Gamlin, Inf, 15 Mar 2006
IC-45006 A Sirothia, Inf, 15 Mar 2006	IC-41104 AK Mitra, Engrs, 15 Mar 2006
IC-45009 Sukhdeep Singh, Inf, 15 Mar 2006	IC-41105 Indeever Sood, Engrs, 15 Mar 2006
IC-45010 SK Das, AAD, 15 Mar 2006	IC-41107 KT Sreekumar, Sigs, 15 Mar 2006
IC-45019 PN Verma, Inf, 15 Mar 2006	IC-41110 Atul Mishra, Arty, 15 Mar 2006
IC-45022 KM Singh, Arty, 15 Mar 2006	IC-41113 P Barman, Inf, 15 Mar 2006
IC-45023 RS Yadav, A/Avn, 15 Mar 2006	IC-41116 KP Ranjan, A/Avn, 15 Mar 2006
IC-45025 RK Sharma, ASC, 15 Mar 2006	IC-41117 GS Bisht, Inf, 15 Mar 2006
IC-45033 TGS Kumar, Sigs, 15 Mar 2006	IC-41119 SK Agarwal, Sigs, 15 Mar 2006
IC-45035 AK Shukla, Inf, 15 Mar 2006	IC-41121 RK Sharma, Arty, 15 Mar 2006
IC-45046 K Budhwar, AC, 15 Mar 2006	IC-41123 JK Satpathy, Engrs, 15 Mar 2006
IC-45050 Tejbir Singh, Inf, 15 Mar 2006	IC-41125 Vivek Davar, Engrs, 15 Mar 2006
IC-45052 VK Puniya, M/Inf, 15 Mar 2006	IC-41126 RS Thakur, AAD, 15 Mar 2006
IC-45054 Rakesh Avasthi, EME, 15 Mar 2006	IC-41128 P Hiteshi, Inf, 15 Mar 2006
IC-45066 S Mehta, Arty, 15 Mar 2006	IC-41131 PP Malhotra, Engrs, 15 Mar 2006
IC-45067 MS Ranade, Arty, 15 Mar 2006	IC-41133 R Tiwari, Engrs, 15 Mar 2006
IC-45070 Deo Raj Singh, AOC, 15 Mar 2006	IC-41135 Sunil B Bodhe, Inf, 15 Mar 2006
IC-45071 Vinod Dutta, AOC, 15 Mar 2006	IC-41136 B Mehta, Inf, 15 Mar 2006
IC-45077 N Basu, Arty, 15 Mar 2006	IC-41137 AK Datta, ASC, 15 Mar 2006
IC-45083 AS Sidhu, Inf, 15 Mar 2006	IC-41139 M Moolri, Sigs, 15 Mar 2006
IC-45097 SB Choudhary, Int, 15 Mar 2006	IC-41141 AK Narula, Inf, 15 Mar 2006
IC-41065 MC Pant, Guards, 15 Mar 2006	IC-41144 SS Negi, ASC, 15 Mar 2006
IC-41066 JS Dhull, EME, 15 Mar 2006	IC-41145 A Bhargava, AAD, 15 Mar 2006
IC-41067 JS Nain, Inf, 15 Mar 2006	IC-41147 MS Kala, AAD, 15 Mar 2006
IC-41068 A Chaudhary, M/Inf, 15 Mar 2006	IC-41148 BB Pandey, AC, 15 Mar 2006
IC-41069 Sunil Singh Suhag, EME, 15 Mar 2006	IC-41150 LC Paul, Inf, 15 Mar 2006
IC-41071 B Mathews, AC, 15 Mar 2006	IC-41152 DR Dhiman, Arty, 15 Mar 2006
IC-41072 R Sirohi, Inf, 15 Mar 2006	IC-41154 AR Goyal, Inf, 15 Mar 2006
IC-41074 ML Gupta, M/Inf, 15 Mar 2006	IC-41155 SP Mehta, Arty, 15 Mar 2006
IC-41077 D Chaudhary, EME, 15 Mar 2006	IC-41156 RGR Tiwari, Arty, 15 Mar 2006
IC-41078 Tarsem Singh, AOC, 15 Mar 2006	IC-41161 HS Bacchal, EME, 15 Mar 2006
IC-41080 G Gurung, Inf, 15 Mar 2006	IC-41165 AK Singh, Inf, 15 Mar 2006
IC-41081 Sanjeev Govila, EME, 15 Mar 2006	IC-41166 Satinder Singh, AAD, 15 Mar 2006
IC-41082 RK Gupta, Inf, 15 Mar 2006	IC-41169 SK Grover, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41083 AS Bhinder, AC, 15 Mar 2006	IC-41170 VK Pandit, Inf, 15 Mar 2006
IC-41087 SS Prasad, Inf, 15 Mar 2006	IC-41172 Baldev Singh, AC, 15 Mar 2006
IC-41088 M Bawa, AC, 15 Mar 2006	IC-41174 M Adhikari, Inf, 15 Mar 2006
IC-41089 RK Raina, Inf, 15 Mar 2006	IC-41175 AV Krishna, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41091 SS Mishra, Inf, 15 Mar 2006	IC-41183 SC Mohanty, Guards, 15 Mar 2006
IC-41093 Joy Daniel, Arty, 15 Mar 2006	IC-41185 Sanjeev Jain, Engrs, 15 Mar 2006

IC-41196 Sudhakar Jee, Inf, 15 Mar 2006	IC-43169 Mahender Singh, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41203 PC Pusti, AC, 15 Mar 2006	IC-43173 MS Lamba, Sigs, 15 Mar 2006
IC-41207 Ashvini Varma, Engrs, 15 Mar 2006	IC-43177 PR Deshmukh, EME, 15 Mar 2006
IC-41210 D Jayadev, Inf, 15 Mar 2006	IC-43189 AK Sinha, EME, 15 Mar 2006
IC-41211 MG Jacob, AAD, 15 Mar 2006	IC-43196 SK Pathak, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41218 SV Bhoite, Inf, 15 Mar 2006	IC-45119 VK Tyagi, EME, 15 Mar 2006
IC-41220 Rajiv Sawhney, Engrs, 15 Mar 2006	IC-45121 JS Soin, Inf, 15 Mar 2006
IC-41223 R S Rawat, Inf, 15 Mar 2006	IC-45123 S Ghose, Inf, 15 Mar 2006
IC-41224 GPS Sandhu, Inf, 15 Mar 2006	IC-45126 Narender Kumar, Inf, 15 Mar 2006
IC-41225 Neeraj Parashar, Engrs, 15 Mar 2006	IC-45127 Joginder Singh, AC, 15 Mar 2006
IC-41228 AK Pattanaik, Arty, 15 Mar 2006	IC-45129 BS Yadav, ASC, 15 Mar 2006
IC-41230 SD Mehta, Inf, 15 Mar 2006	IC-45130 Kuljinder Singh, Inf, 15 Mar 2006
IC-41235 S Saimi, Inf, 15 Mar 2006	IC-45133 Gian Singh, Arty, 15 Mar 2006
IC-41239 VS Kattarya, Engrs, 15 Mar 2006	IC-45138 Sunder Singh, Inf, 15 Mar 2006
IC-41240 Sanjeev Kumar, Engrs, 15 Mar 2006	IC-45144 PC Malhotra, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41246 SK Dutta, Arty, 15 Mar 2006	IC-45151 S Sarkar, Int, 15 Mar 2006
IC-41249 Aalok Sood, Engrs, 15 Mar 2006	IC-45161 RK Sudan, AC, 15 Mar 2006
IC-41251 S Verma, Inf, 15 Mar 2006	IC-45168 RR Handa, AOC, 15 Mar 2006
IC-41252 GS Mann, Inf, 15 Mar 2006	IC-41461 Yogendra Dimri, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41253 Surendra Singh, Arty, 15 Mar 2006	IC-41463 Pawan Anand, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41256 PS Sai, Arty, 15 Mar 2006	IC-41464 T S Rawat, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41257 SP Sharma, Inf, 15 Mar 2006	IC-41465 Ajai Singh, AC, 15 Mar 2006
IC-41266 MH Rizvi, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41466 MK Dutta, EME, 15 Mar 2006
IC-41273 YS Rao, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41467 Baljeet Singh, M/Inf, 15 Mar 2006
IC-41287 P Khanijow, Arty, 15 Mar 2006	IC-41470 Virendra Singh, Inf, 15 Mar 2006
IC-41289 VK Chhatre, Arty, 15 Mar 2006	IC-41471 SK Prashar, Guards, 15 Mar 2006
IC-41299 PG Krishna, Inf, 15 Mar 2006	IC-41473 K Rajasekhar, AC, 15 Mar 2006
IC-41303 S Kaushal, AC, 15 Mar 2006	IC-41475 NK Airy, Inf, 15 Mar 2006
IC-41320 DS Rupaal, Inf, 15 Mar 2006	IC-41476 AK Dhingra, Inf, 15 Mar 2006
IC-41321 S Goyal, Arty, 15 Mar 2006	IC-41477 Arjun Rawat, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41323 S Sah, Inf, 15 Mar 2006	IC-41478 TS Sadashiv, Inf, 15 Mar 2006
IC-41330 KC Bahuguna, Inf, 15 Mar 2006	IC-41479 Sanjeev Sodhi, Sigs, 15 Mar 2006
IC-41367 Uday Singh, Arty, 15 Mar 2006	IC-41481 Tarundeep Kumar, AC, 15 Mar 2006
IC-41374 Bikram Singh, Arty, 15 Mar 2006	IC-41482 BS Dhanoa, AC, 15 Mar 2006
IC-41411 CB Sharma, Inf, 15 Mar 2006	IC-41483 RN Jadhav, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41413 R Shukla, Arty, 15 Mar 2006	IC-41484 V Garg, M/Inf, 15 Mar 2006
IC-41419 Sunil Khosla, ASC, 15 Mar 2006	IC-41486 Madhusudan Dave, Engrs, 15 Mar 2006
IC-43164 S Chandra, Sigs, 15 Mar 2006	IC-41487 Sandeep Rawat, Engrs, 15 Mar 2006
IC-43165 DK Deshmukh, EME, 15 Mar 2006	IC-41488 Rajeev Chaudhry, Engrs, 15 Mar 2006
IC-43166 SK Khanna, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41489 Rajesh Chaba, M/Inf, 15 Mar 2006

IC-41490 SS Dalal, Inf, 15 Mar 2006	IC-41566 VK Singh, AC, 15 Mar 2006
IC-41491 Satpal Ahlawat, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41568 Rajesh Rana, AOC, 15 Mar 2006
IC-41492 C Correya, Inf, 15 Mar 2006	IC-41572 AK Sharma, Inf, 15 Mar 2006
IC-41493 SKJ Dhobale, Arty, 15 Mar 2006	IC-41574 S Manchanda, ASC, 15 Mar 2006
IC-41495 NK Khanduri, AAD, 15 Mar 2006	IC-41580 PS Mangat, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41497 Anil Chaudhary, Sigs, 15 Mar 2006	IC-41581 Arvind Yadav, M/Inf, 17 Apr 2008 but seniority wef 15 Mar 2006 without effect on pay & pension.
IC-41498 S Banerjee, AAD, 15 Mar 2006	IC-41582 LI Singh, Inf, 15 Mar 2006
IC-41499 KR Anand, Sigs, 15 Mar 2006	IC-41585 MKK Iyer, AAD, 15 Mar 2006
IC-41501 Ranjit Ghosh, EME, 15 Mar 2006	IC-41587 DL Chandani, EME, 15 Mar 2006
IC-41503 Daljit Singh, Inf, 15 Mar 2006	IC-41592 Sanjiv Jaswal, Sigs, 15 Mar 2006
IC-41505 Balram Singh, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41593 DJ Singh, AOC, 15 Mar 2006
IC-41507 Arvind Kapoor, Guards, 15 Mar 2006	IC-41594 Prithviraj, Arty, 15 Mar 2006
IC-41509 KJS Dhillon, Inf, 15 Mar 2006 ✓	IC-41595 MKS Yadav, ASC, 15 Mar 2006
IC-41510 RK Dandriyal, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41596 B Chatterjee, Sigs, 15 Mar 2006
IC-41511 MJS Syali, EME, 15 Mar 2006	IC-41597 BB Chauhan, Arty, 15 Mar 2006
IC-41512 Rajeev Nanda, Sigs, 15 Mar 2006	IC-41598 S Jagpal, Arty, 15 Mar 2006
IC-41518 Daya Chand, Inf, 15 Mar 2006	IC-41599 RKS Kushwaha, AOC, 15 Mar 2006
IC-41520 Pradeep Arora, Sigs, 15 Mar 2006	IC-41603 BM Thomas, Arty, 15 Mar 2006
IC-41521 H Gupta, Inf, 15 Mar 2006	IC-41604 R Joseph, Arty, 15 Mar 2006
IC-41522 A Bhuyan, Inf, 15 Mar 2006	IC-41605 RPS Kahlon, Arty, 15 Mar 2006
IC-41524 SS Sharma, EME, 15 Mar 2006	IC-41610 Manoj Rishi, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41528 Harinder Singh, 15 Mar 2006	IC-41613 SK Acharya, Inf, 15 Mar 2006
IC-41529 N Kapur, AC, 15 Mar 2006	IC-41620 DK Dash, AAD, 15 Mar 2006
IC-41530 Mandip Singh, Arty, 15 Mar 2006	IC-41623 K Satyanarayan, Sigs, 15 Mar 2006
IC-41536 Vasudev Pandey, EME, 15 Mar 2006	IC-41624 HS Chatwal, AC, 15 Mar 2006
IC-41541 AK Arora, Inf, 15 Mar 2006	IC-41625 B Mukherjee, EME, 15 Mar 2006
IC-41544 Deepak, Arty, 15 Mar 2006	IC-41628 G Venu, Inf, 15 Mar 2006
IC-41545 HS Kandhola, Inf, 15 Mar 2006	IC-41629 Arun Sabherwal, Sigs, 15 Mar 2006
IC-41546 GS Saroya, Sigs, 15 Mar 2006	IC-41636 JS Gujral, Arty, 15 Mar 2006
IC-41547 Rohit Gupta, M/Inf, 15 Mar 2006	IC-41639 V Kumar, AAD, 15 Mar 2006
IC-41548 Samir Mansingh, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41641 S Dixit, Arty, 15 Mar 2006
IC-41549 Anurag Bhasin, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41646 NK Khajuria, EME, 15 Mar 2006
IC-41551 TC Uniyal, ASC, 15 Mar 2006	IC-41649 Balwinder Singh, Guards, 15 Mar 2006
IC-41553 Shri Niwas Rai, Engrs, 15 Mar 2006	IC-41651 T Sambaiah, Inf, 15 Mar 2006
IC-41555 PV Mohan, Arty, 15 Mar 2006	IC-41659 P Kumar, Arty, 15 Mar 2006
IC-41556 RK Rana, EME, 15 Mar 2006	IC-41662 A Nanda, AC, 15 Mar 2006
IC-41557 RK Bhatt, Arty, 15 Mar 2006	IC-41664 R Chimni, AC, 15 Mar 2006
IC-41563 VK Sharma, EME, 15 Mar 2006	IC-41665 Hemant Bhardwaj, Engrs, 15 Mar 2006
IC-41564 A Bhalla, Inf, 15 Mar 2006	IC-41667 R Raina, A/Avn, 15 Mar 2006
IC-41565 Dilip Banerjee, Engrs, 15 Mar 2006	

IC-41668 AK Kohli, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41672 SK Sharma, Inf, 15 Mar 2006
 IC-41680 Ashok Abbey, Inf, 15 Mar 2006
 IC-41686 IS Rekhi, Engrs, 15 Mar 2006
 IC-41688 GS Sharma, AAD, 15 Mar 2006
 IC-41695 PK Naithani, Engrs, 15 Mar 2006
 IC-41696 RK Hooda, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41698 CR Dalal, ASC, 15 Mar 2006
 IC-41701 Ajay Gupta, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41702 MLM Babu, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41704 MKA Kumar, Inf, 15 Mar 2006
 IC-41720 SK Bhola, EME, 15 Mar 2006
 IC-41722 S Sharma, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41731 RK Mongia, Guards, 15 Mar 2006
 IC-41732 NK Ghai, EME, 15 Mar 2006
 IC-41738 Jasdeep Singh, ASC, 15 Mar 2006
 IC-41741 SK Kurup, Inf, 15 Mar 2006
 IC-41742 V Sharma, AC, 15 Mar 2006
 IC-41758 RS Thakur, Inf, 15 Mar 2006
 IC-41760 Iqbal Singh, EME, 15 Mar 2006
 IC-41762 G Murali, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41765 A Kapoor, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41769 S Kapoor, M/Inf, 15 Mar 2006
 IC-41790 Arvind Mathur, EME, 15 Mar 2006
 IC-41791 PPP Singh, Arty, 15 Mar 2006
 IC-41802 SS Judge, Inf, 15 Mar 2006
 IC-41827 Peter Raju, AEC, 19 Jul 2006 but seniority wef 15 Mar 2006 without effect on pay & pension.
 IC-41828 SS Minhas, AEC, 15 Mar 2006
 IC-41830 VN Chaturvedi, AEC, 15 Mar 2006
 IC-41836 Ashok Kaul, AEC, 01 May 2006 but seniority wef 15 Mar 2006 without effect on pay & pension.
 IC-41717 PS Bains, Inf, 15 Mar 2006
 IC-41079 SN Wasade, Guards, 15 Mar 2006
 IC-43651 PR Swaminathan, Sigs, 15 Mar 2006
 IC-43628 Kuldip Kumar, Sigs, 15 Mar 2006
 IC-43630 Suresh Menon, Sigs, 15 Mar 2006
 SL-03045 NS Chauhan, SL RO, 15 Mar 2006
 SL-03048 AP Kurneri, SL TEO, 27 Jun 2006 but seniority wef 15 Mar 2006 without effect on pay & pension.

IC-41823 BK Reddy, MF, 15 Mar 2006
 IC-41485 Sanjay Sangwan, AC, 15 Mar 2006

AJAY GOEL
 Dy Director
 MS-8A

ARMY BRANCH

No. 612, dated 02nd December 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SL)

Lt to be Capt

Sl No., Name and Arm

SL-4891 Dixit Anil Nilkantha, TOT
 SL-4892 Dhan Singh, TOT
 SL-4893 A Charles Prabakar Joshva, TOT
 SL-4894 Bimal Dubey, TOT
 SL-4895 Narasimha Prabhu M, TOT
 SL-4896 Mohamed Sherif H, TOT
 SL-4897 Shiv Kumar, TEO
 SL-4898 Biju Lai SS, ATO
 SL-4899 Padmajan PK, RO
 SL-4900 Durgesh Kumar Singh, RO
 SL-4901 Raje Ram, RO
 SL-4902 Laxmi Dhar Bhuyan, RO
 SL-4903 Parvinder Kumar, RO
 SL-4904 Amarjeet, RO
 SL-4905 Biswajit Phani, RO
 SL-4906 Anup Kumar Sengupta, RO
 SL-4907 Manoranjan PD Sinha, RO
 SL-4908 Sukha Ram Choudhary, RO
 SL-4909 Ved Prakash Chandra Joshi SM, RO
 SL-4910 Janaga Janaki Rao, RO
 SL-4911 Dom Charley PA, AO
 SL-4912 Gogawale Anil Kashaba, RO
 SL-4913 Krishan Kumar, RO
 SL-4914 Mrinal Panda, RO
 SL-4915 Mohd Babu, RO
 SL-4916 Artatrana Mahana, ICO
 SL-4917 K Madhu Kumar, AO
 SL-4918 Randhir Mishra, RO

SL-4919 Vinson TV, RO	IC-65848 Khushwant Malveeya, AOC, 08 Nov 2005
SL-4920 Vinod Kumar, RO	IC-65867 Randeep Malik, Inf, 08 Nov 2005
SL-4921 Mahendra Singh, RO	IC-67057 Dhirendra Kumar Singh, Inf, 11 Jun 2007
SL-4922 Sarvesh Singh Yadav, RO	IC-67288 Dipankar Choudhury, AEC, 11 Jun 2007
SL-4923 Gujar Atul Namdeo, RO	IC-67752 Sandeep Jha, Engrs, 10 Dec 2007
SL-4924 Raj Kamal Chattopadhyay, RO	IC-68463 Yogesh Chandra, Engrs, 13 Jun 2006
SL-4925 Shirsath Machindra Radhakrishan, TEO	SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)
SL-4926 T Senthil Kumar, RO	Lt to be Capt
SL-4927 Om Prakash Pathak, RO	WS No., Name, Arm, Seniority, Course, Revised date of seniority, Date of promotion for substantive Capt
SL-4928 Maneesh Chawla, RO	WS-01014 Jyoti Bisht, AOC, 19 Mar 2005, WSESO-25 (NT), 19 Mar 2006, 19 Mar 2008
SL-4929 Jagtap Deepak Madhukar, RO	WS-01064 Mehrotra Shikha Sushilkumar, Int, 19 Mar 2005, WSESO-25 (NT), 19 Mar 2006, 19 Mar 2008
SL-4930 Rajesh Kumar Singh, RO	WS-01218 Amarjot Kaur, Sigs, 18 Sep 2004, WSESO-28 (T), 18 Mar 2005, 18 Mar 2007
SL-4931 Patrick PN, RO	WS-01268 Sonu, AAD, 18 Sep 2004, WSESO-28 (T), 19 Mar 2006, 18 Mar 2007
SL-4932 Ram Parkash, RO	SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)
SL-4933 Tarsem Singh, RO	Lt to be Capt
SL-4934 Rajesh Singh Pal, RO	SS No., Name, Arm, Seniority, Course, Revised date of seniority for Promotion, Date of grant of Subs rank of Capt
SL-4935 Rakam Singh Bansal, RO	SS-41514 Bhaskar Rai, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2008
SL-4936 Ravish Kumar, AEE/E/M/IEM	SS-41569 Ankush Pratap, Int, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2008
SL-4938 K Neelakanta Raju, RO	SS-41645 Yagyandra Singh Parmar, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2008
SL-4939 Akshayabar Nath Rai, AEE/E/M/IEM	SS-41699 Tanmoy Raha Roy, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2008
SL-4940 Mahadev, RO	JASWANT SINGH
SL-4941 Neeraj Kumar Srivastava, RO	Jt Dir
SL-4942 Patil Tanaji Ramchandra, RO	MS-8C
SL-4943 Rajesh GK, RO	
SL-4944 Bijender, RO	
SL-4945 Rajesh Trivedi, RO	
SL-4946 Tuhin Kanta Tah, RO	
SL-4947 Joshi Nitin Kumar Jesanglal, RO	
SL-4948 Hernant Kumar, RO	
SL-4949 Mahendra Das NK, IOAB	ARMY BRANCH
SL-4950 Girish Kumar U, IOAB	No. 613, dated 02 Dec 2008—The President is pleased to make the following promotions.

—08 Jul 2008—

IC No., Name, Arm and Date of Subs Capt
 IC-61037 Deepak Rathor, Engrs, 16 Dec 2004
 IC-63987 Anand Singh Bisht, Inf, 12 Jun 2006
 IC-65554 Sandeep Kumar, Inf, 16 Dec 2004
 IC-65833 KJ Thomas, Arty, 08 Nov 2005
 IC-65845 Siddhartha Vijay Seshan, Inf, 08 Nov 2005

REGULAR ARMY
 (ARMY MEDICAL CORPS)
 To be Substantive Subedar Major
 (Laboratory Technician)
 Sub Uma Kant Mallick (JC-692619W), 01 Dec 2007
 Sub Laxmi Narayan (JC-692624F), 01 Feb 2008
 Sub N Zaffar Alam (JC-692630P), 01 May 2008

To be Substantive Subedar Major (Pharmacist)	Nb Sub Shivendra Narayan Pandey (JC-694812F), 01 Apr 2008
Sub Udai Pratap Singh (JC-691149K), 01 Dec 2007	Nb Sub Mohd Israyal Ali (JC-694813K), 01 Apr 2008
Sub Hari Lal Kushawaha (JC-691274N), 01 Feb 2008	Nb Sub Suresh Kumar Rattan (JC-694814M), 01 Apr 2008
Sub Shri Narain (JC-691277F), 01 Jun 2008	Nb Sub Ram Deen (JC-695125X), 01 Apr 2008
Sub Jagmal Singh (JC-691432X), 01 Jun 2008	Nb Sub Niteshwar Prasad Singh (JC-695062A), 01 May 2008
To be Substantive Subedar Major (Psychiatric Nursing Assistant)	Nb Sub Padma Kumar EG (JC-695082N), 01 Jun 2008
Sub Ajab Singh (JC-692693X), 01 Dec 2007	Nb Sub Braham Prakash (JC-695328F), 01 Jun 2008
To be Substantive Subedar Major (Dental Hygienist)	Nb Sub Ajit Singh (JC-695329K), 01 Jun 2008
Sub Jai Singh (JC-692689P), 01 Jan 2008	To be Substantive Subedar (Special Treatment Assistant)
To be Substantive Subedar Major (Dental Technician)	Nb Sub Krishan Kumar Thakur (JC-695126A), 01 Mar 2008
Sub Ram Bahadur (JC-218615X), 01 Apr 2008	Nb Sub Matale Govind Krishna (JC-695169P), 01 Mar 2008
To be Substantive Subedar Major (Dental Operation Room Assisant)	Nb Sub Bhairab Charan Sahoo (JC-695170K), 01 Mar 2008
Sub Ummar KE (JC-692219K), 01 Jun 2008	Nb Sub Vinod Prasad Singh (JC-695209L), 01 Apr 2008
Sub Somasekharan Pillai M (JC-692581X), 01 Jul 2008	Nb Sub Chanchal Singh (JC-695188A), 01 Apr 2008
To be Substantive Subedar (Laboratory Technician)	Nb Sub Godbole Harisha Chandra Laxman (JC-695387N), 01 Apr 2008
Nb Sub Jaipal Singh (JC-695235M), 01 Dec 2007	Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-695443F), 01 Apr 2008
To be Substantive Subedar (Laboratory Assistant)	Nb Sub Jai Prakash Narayan (JC-695386L), 01 Apr 2008
Nb Sub Shailendra Kumar (JC-695236P), 01 Dec 2007	Nb Sub Raghubir Singh (JC-695444K), 01 Jun 2008
Nb Sub Ranbir Singh (JC-695228W), 01 Dec 2007	To be Substantive Subedar (Dental Technician)
Nb Sub Arun Kumar (JC-695237X), 01 Dec 2007	Nb Sub Jalim Ram Gujar (JC-693770N), 01 Apr 2008
Nb Sub Sompal Singh (JC-695271X), 01 Jan 2008	Nb Sub Jagpal Sharma (JC-693937M), 01 Jun 2008
Nb Sub Rakesh Lal (JC-695238A), 01 Feb 2008	Nb Sub Pushpender Kumar (JC-693939X), 01 Jun 2008
Nb Sub Bishnu Prasad Sharma (JC-695239H), 01 Feb 2008	Nb Sub Kunju Moideen CI (JC-693940M), 01 Jun 2008
Nb Sub Ram Khelawon Maurya (JC-695324L), 01 Apr 2008	To be Substantive Subedar (Dental Operation Room Assistant)
Nb Sub Hira Jha (JC-695325N), 01 Apr 2008	Nb Sub Awdhesh Chandra (JC-694227F), 01 Mar 2008
Nb Sub Iswar Singh (JC-695429P), 01 Jun 2008	Nb Sub Kolla Rama Krishna (JC-694296Y), 01 Mar 2008
To be Substantive Subedar (Health Assistant)	Nb Sub Prafulla Chandra Satyarthi (JC-694533W), 01 Jun 2008
Nb Sub Rama Kant Pandey (JC-692218F), 01 Aug 2008	Nb Sub Madan Lal Raizada (JC-694534Y), 01 Jun 2008
Nb Sub Narendra Prasad Behera (JC-692249F), 01 Aug 2008	Nb Sub Ram Bachan Sharma (JC-694695F), 01 Jul 2008
Nb Sub Prem Kumar (JC-692549H), 01 Aug 2008	Nb Sub Bharat Singh Shirawag (JC-694535F), 01 Jul 2008
To be Substantive Subedar (Psychiatric Nursing Assistant)	Nb Sub Vijay Kumar (JC-694669A), 01 Aug 2008
Nb Sub Surendra Singh (JC-694829F), 01 Dec 2007	Nb Sub Ajit Kumar Tiwary (JC-694536K), 01 Aug 2008
Nb Sub Wakil Ray (JC-694873Y), 01 Aug 2008	Nb Sub Kortraja A (JC-694670P), 01 Sep 2008
To be Substantive Subedar (Dental Hygienist)	To be Substantive Subedar Major (Nursing Technician)
Nb Sub Awadesh Kumar Singh (JC-694714F), 01 Jan 2008	Sub Akhilesh Kumar Saxena (JC-693058Y), 01 Feb 2007
Nb Sub Vivekananda Mondal (JC-694777K), 01 Feb 2008	Sub Kanwar Bhawani Singh (JC-693064M), 01 Feb 2007

- Sub Karanvir (JC-693069L), 01 Feb 2007
- Sub Dayal Sharan Verma (JC-693139Y), 01 Oct 2007
- Sub Satyanand Singh Yadav (JC-693071H), 01 Nov 2007
- Sub Devendra Kumar (JC-693143F), 01 Dec 2007
- Sub Ganga Bishan Singh Chouhan (JC-693074W), 01 Dec 2007
- Sub Paimode Dada Saheb Eknath (JC-693063K), 01 Jan 2008
- Sub Rajeev Kumar Mishra (JC-693078M), 01 Apr 2008
- Sub Ram Chandra Singh (JC-693243M), 01 Jun 2008
- To be Substantive Subedar (Nursing Technician)
- Nb Sub Abani Kanta Palai (JC-694245H), 01 Feb 2007
- Nb Sub R Jeevanand (JC-694249A), 01 Feb 2007
- Nb Sub Santosh Kumar Kaushik (JC-694250P), 01 Feb 2007
- Nb Sub Gokul Singh Rautela (JC-694251X), 01 Feb 2007
- Nb Sub Karamvir (JC-694252A), 01 Oct 2007
- Nb Sub Biswajit Ghosh (JC-694254L), 01 Nov 2007
- Nb Sub Shailesh Kumar Maurya (JC-694256W), 01 Dec 2007
- Nb Sub Uma Raman Pandey (JC-694257Y), 01 Dec 2007
- Nb Sub Nand Ram Yadav (JC-694259K), 01 Jan 2008
- Nb Sub Patil Sanjay Subaran (JC-694260Y), 01 Jan 2008
- Nb Sub Keerit Ballabh Kholia (JC-694262K), 01 Apr 2008
- Nb Sub Jeewan Chandra Arya (JC-694263M), 01 Apr 2008
- To be Substantive Subedar (Pharmacist)
- Nb Sub Natesha Naik (JC-693699P), 01 Sep 2007
- Nb Sub Rulda Ram Poswal (JC-693646M), 01 Dec 2007
- Nb Sub Selva Kumar S (JC-693953K), 01 Jan 2008
- Nb Sub Vinod Kumar (JC-693954M), 01 Feb 2008
- Nb Sub Rajachandran Matharadan (JC-693964W), 01 Apr 2008
- Nb Sub N Mariappan (JC-694035K), 01 Apr 2008
- Nb Sub Sajeevan Pillai S (JC-694105X), 01 Jun 2008
- Nb Sub Jare Vivek Dayaram (JC-694143N), 01 Jun 2008
- Nb Sub Rajesh Kumar (JC-694152P), 01 Jul 2008
- Nb Sub Venu Gopalan KV (JC-694144W), 01 Sep 2008
- To be Substantive Nb Sub (Ambulance Assistant)
- Hav Muraleedharan K P (No. 13953864F now JC-695820M), 02 Jan 2007*
- Hav John Peter Masih (No. 13953860L now JC-695821P), 02 Jan 2007*
- Hav Brij Kishor Pandey (No. 13953870P now JC-695822X), 12 Jan 2007*
- Hav S K Abdur Rashid (No. 13953880Y now JC-695823A), 18 Jan 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allces).
- Hav Probir Sikdhar (No. 13953840X now JC-696033X), 01 Jun 2007*
- Hav Chitta Ranjan Mandal (No. 13953904X now JC-696034A), 11 Jun 2007*
- Hav Ananda Chandra Roy (No. 13953905A now JC-696035H), 06 Jun 2007*
- Hav Hiren Kumar Das (No. 13953901K now JC-696153W), 01 Jun 2007*
- Hav Parshotam Singh (No. 13954035A now JC-696036L), 01 Jun 2007*
- Hav Bibhuti Bhusan Mararana (No. 13954054L now JC-696037N), 01 Jun 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allces).
- Hav Rabiram Das (No. 13953476K now JC-696038W), 08 Sep 2007*
- Hav Uttam Chand (No. 13954029M now JC-696039Y), 02 Jul 2007*
- Hav Kalipada Das (No. 13954014K now JC-696275A), 02 Jun 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allces).
- Hav Dalbir Singh (No. 13954084H now JC-696040N), 01 Aug 2007*
- Hav Jagdish Chandra Acharya (No. 13954091Y now JC-696041W), 01 Aug 2007*
- Hav Ram Pal Singh (No. 13954093K now JC-696042Y), 06 Aug 2007*
- Hav Ramesh Bhai Amrut Lal (No. 13954098H now JC-696043F), 01 Sep 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allces).
- Hav Ram Babu Singh (No. 13953578A now JC-696159X), 09 Feb 2008*
- Hav Mahabir Prasad Siani (No. 13954096X now JC-696044K), 01 Sep 2007*
- Hav Anup Kumar Roy (No. 13954109K now JC-696045M), 07 Sep 2007*
- Hav Ram Bilas (No. 13954149L now JC-696046P), 07 Sep 2007*

Hav Bir Bahadur Singh (No. 13954150A now JC-696047X),
01 Sep 2007*

Hav Uma Shanker Singh Kushvaha (No. 13954156F now
JC-696048A), 19 Sep 2007*

Hav Bhaiya Lal (No. 13954161M now JC-696049H),
17 Sep 2007*

Hav Pius Ch Sangma (No. 13954226P now JC-696050X),
21 Sep 2007*

Hav Ganoree Mandal (No. 13954187F now JC-696132A),
13 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2007 without effect on pay and allces).

Hav Rakesh Pal Singh (No. 13954183L now JC-696133H),
27 Oct 2007*

Hav Bhagirathi Munda (No. 13954248N now JC-696134L),
29 Oct 2007*

Hav Rajendran S (No. 13954281L now JC-696118N),
24 Oct 2007*

Hav Sukhwinder Singh (No. 3382008X now JC-696135N),
22 Oct 2007*

Hav Bam Dev (No. 13954331L now JC-696119W), 26 Nov
2007*

Hav Puran Chand Saini (No. 13954348Y now JC-696156K),
31 Oct 2007*

Hav Yogesh Chandra Saini (No. 13954347W now JC-
696140Y), 22 Oct 2007*

Hav Chandra Kant Kolekar (No. 13954373Y now JC-
696136W), 19 Oct 2007*

Hav Badh Nath Prasad Roy (No. 13954362L now JC-
696137Y), 01 Nov 2007*

Hav Tej Bahadur Gurung (No. 13954407A now JC-
696138F), 29 Oct 2007*

Hav Deo Nath Yadav (No. 13954448K now JC-696120L),
10 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb-Sub wef 01 Oct
2007 without effect on pay and allces).

Hav Arun Kumar Singh (No. 13954453P now JC-696121N),
08 Nov 2007*

Hav Ombir Singh (No. 13954476W now JC-696157M),
05 Nov 2007*

Hav Salek Chand (No. 13954474L now JC-696158P),
31 Dec 2007*

Hav Suml Prasad K (No. 13954544Y now JC-696122W),
16 Nov 2007*

Hav Gouranga Chandra Roy (No. 13954531F now JC-
696139F), 28 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2007 without effect on pay and allces).

Hav Shyam Lal Hansda (No. 13954533M now JC-
696160M), 14 Dec 2007*

Hav Rajender Singh (No. 13954536A now JC-696123Y),
07 Dec 2007*

Hav Jagdish Prasad (No. 13954527Y now JC-696125K),
27 Nov 2007*

Hav Jaya Prakasan K K (No. 13954583X now JC-696124F),
23 Nov 2007*

Hav Premanand Gaonkar (No. 13954588W now JC-
696161P), 03 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2007 without effect on pay and allces).

Hav Suresh Kumar Rana (No. 13954625Y now JC-
696126M), 01 Dec 2007*

Hav Sambasivan M (No. 13954688F now JC-696162X),
22 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2007 without effect on pay and allces).

Hav Dinesh Rai (No. 13953540W now JC-696163A),
01 Jan 2008*

Hav Virendra Singh (No. 13954137W now JC-696164H),
01 Jan 2008*

Hav Rakesh Singh (No. 13954768Y now JC-696165L),
01 Jan 2008*

Hav Ramtej Singh (No. 13954749N now JC-696166N),
01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008
without effect on pay and allces).

Hav Tanbir Ahmed (No. 13954727P now JC-696174M),
12 Feb 2008*

Hav Pujari Pandurang Sayappa (No. 13954771Y now JC-
696167W), 01 Feb 2008*

Hav Rajender Singh (No. 13954715A now JC-696168Y),
06 Feb 2008*

Hav Birendar Singh (No. 13954729A now JC-696175P),
13 Feb 2008*

Hav Narender Bahadur (No. 13954734L now JC-696169F),
09 Feb 2008*

Hav Babu Lal (No. 13954705W now JC-696170W), 08 Feb
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2008 without effect on pay and allces).

Hav Keshab Datt Joshi (No. 13954726M now JC-696171Y),
01 Feb 2008*

Hav Har Bhajan Singh (No. 13954782L now JC-696172F),
01 Feb 2008*

Hav Vikram Singh (No. 13954902Y now JC-696173K),
06 Feb 2008*

Hav Moti Lal Ramkalap Yadav (No. 13954936M now JC-
696176Y), 18 Feb 2008*

Hav Visram Srivastaw (No. 13954911A now JC-696276H),
24 Feb 2008*

Hav Ujni Krishnan Nair R (No. 13955000W now JC-
696277L), 27 Feb 2008*

Hav K Thiruvengadam (No. 13955116M now JC-696278N),
28 Feb 2008*

Hav Md Chhattar Sheikh (No. 13955144Y now JC-
696279W), 23 Feb 2008*

Hav Shambhu Sahany (No. 13955135X now JC-696280L),
01 Mar 2008*

Hav Yogendra Singh (No. 13955134P now JC-696281N),
25 Feb 2008*

Hav Gajendra Kumar (No. 13955118X now JC-696282W),
28 Feb 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2008 without effect on pay and allces).

Hav Anand Prakash Gorial (No. 13954368M now JC-
696292A), 28 Mar 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Feb
2008 without effect on pay and allces).

Hav Dina Nath Thakur (No. 13955136A now JC-696283Y),
03 Mar 2008*

Hav Hari Kumar T (No. 13954543W now JC-696284F),
01 Mar 2008*

Hav Verender Singh (No. 13954722W now JC-696285K),
13 Mar 2008*

Hav Dharmvir Singh (No. 13955173N now JC-696286M),
03 Mar 2008*

Hav Chandra Kant Narayan Desai (No. 13955256Y now
JC-696287P), 03 Mar 2008*

Hav Gopal Chandra Sarkar (No. 13955251A now JC-
696440A), 03 Mar 2008*

Hav Parshuram Singh Kushwaha (No. 13955216X now
JC-696288X), 04 Mar 2008*

Hav Shiv Nath Ram (No. 13955215P now JC-696289A),
01 Mar 2008*

Hav Lutan Mahato (No. 13954664X now JC-696290P),
05 Mar 2008*

Hav Ramji Kasri Parte (No. 13955236L now JC-696293H),
01 Mar 2008*

Hav Kailash Chandra Kap (No. 13955276M now JC-
696291X), 01 Mar 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2008 without effect on pay and allces).

Hav Balaram Sahoo (No. 13955327P now JC-696314N),
01 Apr 2008*

Hav Nor Bahadur Magar (No. 13955360M now JC-
696317F), 01 Apr 2008*

Hav Ramesh Kumar (No. 13955349N now JC-696315W),
01 Apr 2008*

Hav Surender Prasad Gupta (No. 13955362X now JC-
696318K), 01 Apr 2008*

Hav Shyam Dev Singh (No. 13955430A now JC-696316Y),
01 Apr 2008*

Hav Gangadhar Gouda (No. 13955433N now JC-696441H),
28 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2008 without effect on pay and allces).

Hav Bhola Nayak (No. 13955452Y now JC-696442L),
01 May 2008*

Hav Shyam Sunder Singh (No. 13955484F now JC-
696443N), 01 May 2008*

Hav Jaibir Singh (No. 13955497Y now JC-696444W),
02 May 2008*

Hav Vijay Pal Singh (No. 13955490P now JC-696445Y),
03 May 2008*

Hav Narendra Singh (No. 13955547Y now JC-696446F),
01 May 2008*

Hav Madan Singh (No. 13955548F now JC-696447K),
01 May 2008*

Hav Govind Singh Biroriya (No. 13955549K now JC-
696448M), 01 May 2008*

Hav Bikram Singh (No. 13955531N now JC-696449P),
01 May 2008*

Hav Satya Prakash Yadav (No. 13955527L now JC-
696450K), 24 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allces).

Hav Ashok Kumar Kaushik (No. 13955554P now JC-
696451M), 02 Jun 2008*

Hav Radha Krishnan K (No. 13955713F now JC-696452P),
01 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2008 without effect on pay and allces).

Hav Pushkar Singh (No. 13955574H now JC-696453X),
01 Jul 2008*

Hav Ravinder Thakur (No. 13955581Y now JC-696454A),
01 Jul 2008*

Hav Md Mukta Dil S K (No. 13955668A now JC-696455H),
01 Jul 2008*

Hav Baiwant Singh (No. 13955637A now JC-696456L),
02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar (Religious Teacher)

RRT Ravikant Mishra (No. 695482A now JC-695482A),
09 Sep 2006*

(*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Sep
2006 without effect on pay and allces).

RRT Ved Parkash (No. 695548L now JC-695548L), 02 Dec
2006*

RRT Arvind Kumar Singh (No. 15476037F now JC-
695769X), 02 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Dec
2006 without effect on pay and allces).

RRT (Mahashya Mahendra Tiwari No. 1398059K now JC-
695938N), 07 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Apr
2007 without effect on pay and allces).

RRT Ravendra Prasad Mishra (No. 6937885Y now JC-
696154Y), 08 Sep 2008*

RRT Shashi Bhushan (No. 15419219K now JC-696155F),
08 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Apr
2007 without effect on pay and allces).

To be Substantive Naib Subedar (SKT)

Hav Ranjit Singh (No. 13961508W now JC-695933),
14 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2007 without effect on pay and allces).

Hav Ashok Kumar (No. 13963726N now JC-695971L), 11
May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2007 without effect on pay and allces).

Hav Nanda kumar Prasad (No. 13960551L now JC-
696004H), 01 Sep 2007*

Hav Ashok Kumar (No. 13961376N now JC-696005L), 01
Sep 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2007 without effect on pay and allces).

Hav Rama Kant Vishwakarma (No. 13959088H now JC-
696369X), 10 Apr 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2008 without effect on pay and allces).

Hav Braj Kishor Singh (No. 13963472F now JC-696367M),
01 May 2008*

Hav Vijayan E. (No. 13962053X now JC-696370M),
01 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allces).

Hav Unnikrishna Pillai V (No. 13962140L now JC-
696427W), 01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allces).

To be Substantive Naib Subedar [CHEF (Hosp)]

Hav Mohan Bardewa (No. 13964487W now JC-696006N),
01 Sep 2007*

Hav Kritanjai Kumar Upadhyay (No. 13964495P now JC-
696007W), 01 Sep 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2007 without effect on pay and allces).

Hav Diwan Singh (No. 13964631A now JC-696129A), 29
Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2007 without effect on pay and allces).

Hav Shyam Pratap Tiwari (No. 13964471L now JC-
696247N), 27 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2007 without effect on pay and allces).

Hav Dashrath Saw (No. 13964876W now JC-696428Y), 08
Jul 2008*

Hav M Balasekaran (No. 13965207K now JC-696429F), 01
Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allces).

KULWANT RANA
Under Secy.

No. 614, dated 03rd December 2008—The President is
pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Jai Prakash Prasad (JC-267328X), 16 Aug 2008/
01 Jun 2008*

Nb Sub Avtar Singh (JC-268506F), 22 Jun 2008/01 Jun
2008*

Nb Sub Kamlesh Chander (JC-267542A), 08 Aug 2008/04
Jun 2008*

Nb Sub Manikant Jha (JC-268393K), 23 Jun 2008/
14 Jun 2008*

Nb Sub Mithilesh Kumar Yogic (JC-267512H), 30 Jun
2008

Nb Sub Kasturi Lal Sharma (JC-265821M), 01 Jul 2008

Nb Sub Ranbir Singh (JC-267428H), 01 Jul 2008

Nb Sub Rohitashav Yadav (JC-267678K), 10 Jul 2008/01 Jul 2008*

Nb Sub Dang Rajendra Kumar Dattatraya (JC-267874K), 01 Jul 2008

Nb Sub Jai Chand Ram Swami (JC-267713F), 01 Jul 2008

Nb Sub Santosh Kumar Katiyar (JC-267826K), 01 Jul 2008

Nb Sub Padmanabhan CV (JC-267639L), 01 Jul 2008

Nb Sub Prem Chand (JC-267456P), 08 Aug 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-267063Y), 02 Feb 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub vijaipal Singh (JC-267808F), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Nb Sub Ved pal (JC-268811N), 02 Apr 2008/01 Mar 2008*

Nb Sub Jarnail Singh (JC-267299N), 30 May 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Chainna Raji K (JC-267627W), 11 Jul 2008/20 Apr 2008*

Nb Sub Radhe Shyam (JC-268267X), 01 Apr 2008

Nb Sub Kishan Singh (JC-268913K), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Nb Sub Ravindran VK (JC-269237M), 07 Jul 2008/01 Jul 2008*

Nb Sub Ajit Ram (JC-268822A), 01 Jul 2008

Nb Sub Janak Raj (JC-268754X), 23 Jul 2008/01 Jul 2008*

Nb Sub Mahesh Chander (JC-268329M), 15 Jul 2008/01 Jul 2008*

*(Gtd seniority wef)

Nb Sub Amar Singh (JC-268856N), 23 Sep 2008/01 Sep 2008*

Nb Sub Dayas Shankar Dubey (JC-267229P), 13 Aug 2008/31 May 2008*

Nb Sub Satyapal Singh (JC-267631Y), 29 Aug 2008/01 Jun 2008*

Nb Sub Roop chand Yadav (JC-266964Y), 02 Jun 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Deva Kanta Phukon (JC-268622K), 12 May 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Arun Chandra Das (JC-268018Y), 06 May 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Manjit Singh (JC-268604F), 14 Jun 2008/01 Jun 2008*

Nb Sub Anant Ram (JC-267567M), 12 Aug 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Sajjan Singh (JC-266423X), 14 Dec 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Satyapal (JC-266851W), 21 May 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub A Mahadevan (JC-268857W), 30 Jun 2008/01 Jun 2008*

Nb Sub Rajender Kumar (JC-270343X), 28 Sep 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-266421M), 22 Nov 2007/01 Sep 2007*

Nb Sub Mehar Singh (JC-266789P), 01 Feb 2008

Nb Sub Jay Prakash Mandal (JC-267124L), 18 Aug 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Naresh Singh (JC-266559F), 03 Ar 2008/01 Mar 2008*

Nb Sub Chaman Singh (JC-268261W), 21 May 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Palani Swamy T (JC-268470N), 18 Mar 2008/01 Mar 2008*

Nb Sub Ranjit Singh (JC-268351X), 09 Jul 2008/01 Jul 2008*

Nb Sub Jagdish Chander (JC-270347N), 07 Oct 2008/31 Aug 2008*

Nb Sub Taj bahadur Singh (JC-268616W), 08 Jun 2008/01 Jun 2008*

Nb Sub Uma Ram Suthar (JC-268375F), 13 Jun 2008/01 Jun 2008*

Nb Sub Rajendra Singh (JC-267108N), 05 Feb 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Balbir Singh (JC-268000H), 04 Jul 2008/01 Jul 2008*

Nb Sub Mani Kandan PR (JC-267786N), 03 Apr 2008/03 Aug 2008*

Nb Sub Bodh Raj (JC-267515W), 30 Mar 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Dalbir Singh (JC-266767W), 16 Apr 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub A Karuppa Samy (JC-268055M), 02 Apr 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Ram Kishor singh (JC-266757M), 19 Apr 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Parshotam Lal (JC-268396X), 01 Dec 2007

Nb Sub Jagdish Chand (JC-267620M), 22 Aug 2008/07 Aug 2008*

Nb Sub Krishan Dev Chandel (JC-269511Y), 09 Aug 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Raju KV (JC-267939M), 01 Aug 2008

Nb Sub Pratheep Kumar P (JC-268679Y), 01 Aug 2008

Nb Sub Partap Chand (JC-268860W), 01 Aug 2008

Nb Sub Ram Prakash (JC-267599P), 08 Aug 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Ram Saran Singh (JC-267493H), 30 Aug 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Rameshan Onden (JC-269269P), 22 Aug 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Ranjit Neyog (JC-269227H), 22 Aug 2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Dinesh Prasad (JC-269552H), 23 Aug 2008/01 Aug 2008*

*(Gtd Seniority wef)

To be Nb Sub

BHM Suresh Chand (No. 14486113N now JC-272155P), 14 Jun 2008/28 May 2008*

Hav Bhagwan Singh Yadav (No. 14493993X now JC-272156X), 11 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hav Prithavinath Singh (No. 14492094K now JC-272157A), 24 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hav Gashingh Pandey (No. 15118493W now JC-272158H), 11 Aug 2008/29 Jun 2008*

Hav Bhole Gopal Pundlik (No. 14374605L now JC-272159L), 07 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Narasimhulu Nerella (No. 15124745N now JC-272160A), 01 Jul 2008

Hav Dharam pal (No. 15112563N now JC-272161H), 04 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Sudhan Kumara Tarrafdar (No. 14395844N now JC-272162L), 04 Aug 2008/10 Jul 2008*

Hav Hem Singh (No. 14391968L now JC-272163N), 18 Aug 2008/11 Jul 2008*

Hav Mehtab Singh (No. 14493669A now JC-272164W), 08 Aug 2008/12 Jul 2008*

Hav Satwinder Singh (No. 14410305X now JC-272165Y), 09 Aug 2008/21 Jul 2008*

Hav Manohar Lal (No. 14485543L now JC-272166F), 06 Aug 2008/25 Jul 2008*

Hav Balwent Singh (No. 14400094M now JC-272167K), 02 Sep 2008/01 Aug 2008*

Hav Mangat Ram (No. 14497990F now JC-272168M), 14 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Bharat Handique (No. 14410712A now JC-272169P), 30 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Gurmail Singh (No. 15100082P now JC-272170K), 05 Aug 2008/02 Aug 2008*

*(Gtd Seniority wef)

Hav Amar Pal (No. 14401253L now JC-272051M), 11 Jul 2008/01 Feb 2008*

Hav Jai Ram Ram (No. 15103775X now JC-272152W), 30 May 2008/17 Apr 2008*

Hav Surender (No. 14374108F now JC-271053Y), 09 Jun 2008/03 May 2008*

Hav Surender Prasad Dewidi (No. 14385667W now JC-272054F), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Vashustha Rai (No. 14387861Y now JC-272055K), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Prabhu Nath Singh (No. 14489508A now JC-272056M), 01 Jun 2008

Hav Satpal Singh (No. 14379557A now JC-272057P), 01 Jun 2008

Hav Biresh Singh (No. 15101330M now JC-272058X), 02 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hav Arun Kumar (No. 14379243Y now JC-272059A), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Pralhad Wavdhane (No. 14494459M now JC-272060P), 08 Jul 2008/05 Jun 2008*

Hav Vrajindre Singh (No. 15112052K now JC-272061X), 04 Jul 2008/10 Jun 2008*

Hav Joginder Singh (No. 15103118N now JC-272062A), 01 Jul 2008

Hav Shri Bhagwan (No. 14488806K now JC-272063H), 20 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Vikram Singh (No. 14398303X now JC-272064L), 02 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav T Pappaiyan (No. 14379676W now JC-272065N), 02 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Shiv Charan (No. 14479721M now JC-272066W), 01 Aug 2008

Hav Chavan Rajaram Tulsiram (No. 14398625X now JC-272076A), 11 Feb 2008/18 Nov 2007*

Hav Gawali Mahadeo Raghunath (No. 14497307W now JC-272077H), 11 Apr 2008/01 Jan 2008*

Hav Jevinder Singlu (No. 14490018Y now JC-272078L), 01 Jan 2008

Hav Satish Kumar (No. 14408290F now JC-272079N), 29 May 2008/01 Mar 2008*

Hav Sanjeev Kumar (No. 14396126K now JC-272080H), 23 Jun 2008/01 Apr 2008*

Hav Krishnappa Shiraganvi (No. 15112233P now JC-272081L), 16 Apr 2008/01 Apr 2008*

Hav Pradip Kumar Chauhan (No. 14388735Y now JC-272082N), 20 Jun 2008/11 May 2008*

BHM Dalip Kumar (No. 14491749Y now JC-272083W), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Dharpal Singh (No. 14372620F now JC-272084Y), 02 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav M Soma Sundaram (No. 14371470K now JC-272085F), 10 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Hawa Singh (No. 14374599H now JC-272086K), 07 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hav Surinder Singh (No. 14386388M now JC-272087M), 05 Jul 2008/24 Jun 2008*

Hav Dharmendra Pratap Singh (No. 14386704A now JC-272088P), 24 Jun 2008

Hav G Senumuni Rajulu (No. 14389814A now JC-272089X), 01 Jul 2008

Hav Parma Nand (No. 15121050A now JC-272090M),
01 Jul 2008

Hav Rama Moorthi L (No. 15109738A now JC-272091P),
01 Aug 2008

Hav Manjit Singh (No. 15102531X now JC-272092X),
11 May 2008/01 Feb 2008*

Hav Sita Ram (No. 14499552X now JC-272093A), 02 Apr
2008/01 Mar 2008*

Hav Dalan Yadav (No. 14487515X now JC-272094H),
25 May 2008/26 Apr 2008*

Hav Damarakula Yosephu (No. 15119582F now JC-
272095L), 20 Jun 2008/23 May 2008*

Hav Jagpal Singh (No. 14402504W now JC-272096N),
25 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hav R Sakthivel (No. 8034784W now JC-272097W),
24 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Surinder Kumar (No. 15118884P now JC-272098Y),
14 Jun 2008/01 Jun 2008*

Hav Lourdunathan (No. 14487996P now JC-272099F),
14 Jul 2008/05 Jun 2008*

Hav Jaswant Singh (No. 14486830F now JC-272100L),
13 Jul 2008/24 Jun 2008*

Hav R Ravi (No. 14496353Y now JC-272101N), 07 Jul
2008/25 Jun 2008*

Hav Rajender Prasad (No. 15114632X now JC-272102W),
10 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Didar Singh (No. 14489632F now JC-272103Y),
01 Jul 2008

Hav Balwan Singh (No. 15111917Y now JC-272104F),
17 Jul 2008/10 Jul 2008*

Hav Satyawan (No. 14381252Y now JC-272105K), 01 Aug
2008

Hav Yudhbir Singh (No. 15102226L now JC-272106M), 04
Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Prasana Kumar Barik (No. 14497287N now JC-
272107P), 01 Aug 2008

Hav Chinthada Simhanchalam (No. 14495674K now JC-
272009P), 01 Jul 2008/06 Aug 2008*

Hav Rashpal Singh (No. 14399830L now JC-272010K),
14 Feb 2008/26 Nov 2007*

Hav Parasuram Kumar Singh (No. 14492194P now JC-
272011M), 19 May 2008/01 Jan 2008*

Hav Rakesh Kumar (No. 14397584M now JC-272012P),
18 Jun 2008/01 Feb 2008*

Hav Vishwanath Singh (No. 14492409H now JC-272013X),
29 Feb 2008/25 Feb 2008*

RHM Rajinder Singh (No. 14484803Y now JC-272014A),
13 May 2008/31 Mar 2008*

Hav Mukand Singh (No. 14497040M now JC-272015X),
01 Apr 2008

*(Gtd Seniority wef)

BHM Chandra Shekhar Arabhanvi (No. 14491331W now
JC-272016L), 19 May 2008/01 Apr 2008*

Hav Rajbir (No. 14484878W now JC-272017N), 18 Jun
2008/01 Apr 2008*

Hav Brajendra Singh (No. 15102752K now JC-272018W),
19 May 2008/01 Apr 2007*

Hav Surendra Prasad (No. 15114472H now JC-272019Y),
23 May 2008/01 May 2008*

Hav Mali Raja Ram Bhim Rao (No. 15119398W now JC-
272020N), 17 May 2008/01 May 2008*

Hav Sankar K (No. 14388447M now JC-272021W), 18 Jun
2008/01 Jun 2008*

Hav Sakattar Singh (No. 14383849A now JC-272022Y),
08 Jun 2008/06 Jun 2008*

Hav Narayan Singh Rathore (No. 14397884N now JC-
272023F), 01 Jul 2008

Hav Margabandu D (No. 14376005F now JC-272024K),
02 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav Narake Sandip Vitthal (No. 15119409X now JC-
272035W), 19 Jul 2008/01 Dec 2007*

Hav Jai Prakash Gupta (No. 14489005P now JC-272036Y),
08 May 2008/01 Jan 2008*

BHM Syed Arshad Mahadi Bukari (No. 15111989H now
JC-272037F), 29 Jun 2008/01 Feb 2008*

Hav Naik Pramod Waman (No. 15102939W now JC-
272038K), 09 Apr 2008/01 Mar 2008*

Hav Subedar Singh Yadav (No. 14495767Y now JC-
272039M), 25 Apr 2008/01 Mar 2008*

BHM Fakeerappa Badiger (No. 14395377P now JC-
272040F), 03 Jun 2008/11 Apr 2008*

Hav Ranbir (No. 14398674A now JC-272041K), 03 Jul
2008/17 May 2008*

Hav Brahm Dew (No. 15106919A now JC-272042M),
03 Jun 2008/01 Jun 2008*

RHM Om Prakash Khatik (No. 14380644A now JC-
272043P), 05 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav Raveendran Pillai MN (No. 15105292Y now JC-
272044X), 01 Jul 2008

Hav Ambrose K (No. 14392236F now JC-272045A), 01 Jul
2008

Hav Rodash Singh (No. 14390601Y now JC-272046H),
01 Jul 2008

Hav Raj Bahadur Singh (No. 14480918P now JC-272047L),
01 Jul 2008

Hav Jagir Singh (No. 14492785W now JC-272048N),
03 Jul 2008

Hav Bhoopendra Kumar Yadav (No. 15111471P now JC-
272049W), 01 Jul 2008

Hav Babu Lal Bhadu (No. 14386591H now JC-272050L),
01 Aug 2008

Hav Puran Singh (No. 14498442W now JC-272108X),
14 May 2008/01 Jan 2008*

Hav Vijay Singh (No. 14373829Y now JC-272109A),
14 Apr 2008/22 Jan 2008*

Hav G Sankar (No. 14407285K now JC-272110P), 17 Mar
2008/01 Mar 2008*

Hav Daya Nand Kumar Sharma (No. 14374505A now JC-
272111X), 28 Jul 2008/20 Apr 2008*

Hav Kuldeep Singh (No. 14401333H now JC-272112A),
11 Aug 2008/08 May 2008*

Hav Jaman Singh (No. 14391540Y now JC-272113H),
26 Jun 2008/28 May 2008*

Hav Lal Ajit Kumar Singh (No. 15115939P now JC-
272114L), 04 Aug 2008/01 Jun 2008*

Hav Surender Singh (No. 15103088F now JC-272115N),
16 Jul 2008/29 Jun 2008*

Hav Lallan Singh (No. 14389014F now JC-272116W),
08 Aug 2008/01 Jul 2008*

Hav Basayya Pujar (No. 14370153W now JC-272117Y),
01 Jul 2008

Hav Madan Lal (No. 14490047N now JC-272118F), 09 Jul
2008/01 Jul 2008*

Hav D Venkat (No. 14389516K now JC-272119K), 22 Jul
2008/01 Jul 2008*

Hav Alok Deb (No. 14403757X now JC-272120Y),
01 Jul 2008

Hav Satendra Prasad (No. 14498471L now JC-272121F),
05 Aug 2008/01 Aug 2008*

BHM Ranjeet Kumar Verma (No. 14406072K now JC-
272122K), 01 Aug 2008

*(Gtd Seniority wef)

P RAMA SASTRY
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 615, dated 3rd December 2008.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Naib Subedar (GD)

Hav Jaswant Singh Rathore (No. 1265579Y now JC-
842293Y), 29 Mar 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Satya Prasad (No. 10404014H now JC-842303X),
15 Mar 2008**

Hav Shahbadi Mohmad Allauddin (No. 14343019F now
JC-842340A), 29 May 2008**

Hav Gurdial Singh (No. 4451427Y now JC-842305H),
14 Mar 2008**

Hav Ajendra Prasad (No. 14317660H now JC-842308W),
15 Apr 2008**

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Joseph Mathew (No. 10289475X now JC-842312Y),
01 Apr 2008***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Fakir Farid Husensha (No. 10149531N now JC-
842320X), 01 May 2008****

Hav Om Parkash (No. 1050834Y now JC-842321A),
01 May 2008****

Hav Mohinder Singh (No. 10479019H now JC-842322H),
01 May 2008****

Hav Mange Ram (No. 10479041N now JC-842323L),
01 May 2008****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ved Prakash (No. 10479271F now JC-842324N),
01 May 2008****

Hav Piare Lal (No. 10479285F now JC-842325W), 01 May
2008****

Hav Band Bhagwat (No. 10227236A now JC-842326Y),
01 May 2008****

Hav Amar Singh (No. 1260316W now JC-842327F),
01 May 2008****

Hav Om Parkash (No. 10301959M now JC-842328K),
01 May 2008****

Hav Bhawani Dutt Bhatt (No. 5841442K now JC-
842329M), 05 May 2008****

Hav Shadak Sharaiah (No. 10358502K now JC-842330F),
05 May 2008****

Hav Karam Singh (No. 3970146K now JC-842331K),
01 May 2008****

Hav Balcharan Singh (No. 14309466Y now JC-842332M),
01 May 2008****

Hav Kuldip Puri (No. 10196667H now JC-842333P),
13 May 2008****

Hav Lanke Udhaio Mhatarji (No. 10436079K now JC-
842334X), 01 May 2008****

Hav Karam Chand (No. 2464211K now JC-842336H),
05 May 2008****

Hav Bardane Laxman Mahadu (No. 10119096P now JC-
842337L), 01 May 2008****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Om Parkash (No. 10313540N now JC-842338N),
09 May 2008****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Roshan Lal (No. 10301774L now JC-842342W),
02 Jun 2008*****

Hav Divakaran P (No. 10358267W now JC-842344F),
01 Jun 2008*****

Hav Ram Niwas (No. 10313724M now JC-842346M),
02 Jun 2008*****

Hav Prayag Datt (No. 4166545L now JC-842349A),
02 Jun 2008*****

Hav Tarsem Dass (No. 3975626X now JC-842351X),
02 Jun 2008*****

Hav Hari Krishan (No. 13737067H now JC-842352A),
02 Jun 2008*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2008 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (Clk)

Hav/Clk Dronacharya Joshi (No. 10404736P now JC-
842311W), 17 May 2008*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef
01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Awadhesh Prasad (No. 14213082M now JC-
842339W), 16 Jun 2008*****

Hav/Clk Nand Kishor (No. 6380152W now JC-842341N),
09 Jun 2008*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef
01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Suresh M (No. 2985641K now JC-842359K),
01 Jul 2008*****

Hav/Clk Nagarkar Suryakant Vithal (No. 10146384L now
JC-842360Y), 01 Jul 2008*****

Hav/Clk Jagdish Chandra (No. 14336500X now JC-
842361F), 01 Jul 2008*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk wef
01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 616, dated 3rd December 2008.—The President is
pleased to permit the under mentioned officers to pre-
mature retirement/resign their commission from the Army

Service wef dates noted against them, earlier than their
normal age of retirement at their own request for their
personal reasons :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name Arm/Service and Date of Retirement

IC-59633 Major Vikram Mohan, Armed, 23 Apr 2008(AN)

IC-44916 Lt Col RDS Chauhan, EME, 08 Jan 2008(AN)

IC-47993 Lt Col SSR Kamath, EME, 08 Jan 2008(AN)

IC-45768 Major AK Kohhli, EME, 17 Apr 2008(AN)

IC-44030 Lt Col Sarwate Ashutosh S, EME, 15 Apr 2008
(FN)

IC-47486 Lt Col Poonacha MM, EME, 19 Feb 2008(AN)

IC-44331 Lt Col Prasoon Singh, Arty, 01 Oct 2007(AN)

IC-51883 Lt Col Anand Kumar, Engrs, 07 Jan 2006

IC-43800 Lt Col Ravi Singh, Engrs, 06 Jan 2008(AN)

IC-44406 Lt Col SN Shekar, Int Corps, 21 Aug 2007(AN)

IC-44374 Lt Col Ranbir Singh, Int Corps, 06 May
2007(AN)

IC-44955 Lt Col S Venugopalan, Engrs, 22 Oct 2007(AN)

IC-45169 Lt Col NCS Grewal, Armed, 31 May 2007(AN)

IC-47006 Lt Col Mandeep Singh Vij, Armed, 30 Jun
2008(AN)

IC-44846 Lt Col Sanjay Bhardwaj, Armed, 29 Feb
2008(AN)

IC-42266 Lt Col Ravneesh Singh Aujla, Armed, 09 Aug
2007(AN)

IC-44338 Lt Col Ronodeep Anand, Armed, 20 Jun
2007(AN)

SK CHAKRABORTY

Joint Director

MS/PR